

## G. K. CONSULTANTS LIMITED

PROJECT CONSULTANTS-CONCEPT TO COMMISSIONING Web: gkconsultantsltd.com, CIN: L74140DL1988PLC034109 302, G. K. HOUSE, 187A, SANT NAGAR, EAST OF KAILASH

NEW DELHI-110065. INDIA

PHONE: 26489299, 26489431 FAX: 011-26489199

E-mail: akg\_gkcl@yahoo.co.in

## CORPORATE RELATIONSHIP DEPARTMENT,

BSE Limited, 1<sup>ST</sup> Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001

Sub.: Compliance under Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Reg.: G. K. CONSULTANTS LIMITED

Respected Sir,

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are sending herewith the copy of advertisement published in "Financial Express" (English) and "Jansatta" (Hindi) both dated 02<sup>th</sup> August, 2020 with regard to Submission of Audited Financial Results for the Quarter Ended and Year Ended 31.03.2020.

This is for your information and records.

Thanking You.

Yours truly,

For G. K. CONSULTANTS LIMITED

(CS. SH. PA VERMA) COMPAN SE (RETARY

Mem No. : FCS 10105

Date: 04/08/2020

Encl: as above

**PARTICULARS** 

Net Profit/(Loss) from ordinary activities before tax

Total Income From operation(net)

Equity Share Capital

NOTES:

Place: New Delhi

Date: 31/07/2020

S.

No.

Net Profit/(Loss) for the period after tax

(of Rs. 10/- each Basic and diluted (Rs.)

(of Rs. 10/ each Basic and diluted (Rs.)

(EPS for the period not annualised)

Reserves (excluding Revaluation Reserve as

shown in the Balance Sheet of previous year)

Earnings Per share (before extraordinary items)

Earnings per share (after extraordinary items)

**PARTICULARS** 

Profit/(Loss) for the period (before exceptional

Equity Share Capital (Face value of Rs.10/- each)

approved by the Board of Directors at its meeting held on 31" July, 2020.

**PARTICULARS** 

Total income from operations (Net)

(before tax and exceptional items)

(before tax and after exceptional items)

(after tax and after exceptional items)

other comprehensive Income (after Tax)

Total comprehensive Income for the period after

Earnings Per Share (Face Value of Rs. 10/- each)

(for continuing and discontinued operations)

comprising Profit/ (Loss) for the period (After tax) and

Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the

Net Profit/ (Loss) for the period

Net Profit/ (Loss) for the period

Net Profit/ (Loss) for the period

Balance Sheet of previous year)

Equity Share Capital

www.seasonsworld.com.

Place: New Delhi

Date: 31.07.2020

respective meeting held on 31.07.2020.

Basic:

Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com)

Profit/(Loss) for the period before tax

Net Profit/ Loss for the period after tax

Reserve excluding revaluation reserves

Earning per share of Rs.10/- each

Total Income from operations

(after exceptional items)

(after exceptional Items)

Total comprehensive income

tems and tax)

(1) Basic (Rs.)

Place: New Delhi

Date : 31" July, 2020

NOTES

(2) Diluted (Rs.)

Board of Directors at its meeting held on 31" July, 2020.

(www.bseindia.com) and on company's website www.gkconsultantsltd.com.

**G. K. CONSULTANTS LIMITED** 

Registered Office: 302, G. K. House, 187-A, Sant Nagar,

East of Kailash, New Delhi - 110 065 CIN: L74140DL1988PLC034109

EXTRACT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31" MARCH, 2020

31.03.2020

(Audited)

672.32

-43.33

-48.00

531.18

172.83

-0.90

-0.90

SUBODH

Quarter Ended

31.12.2019

(Unaudited)

(3,544.40)

(3,544.40)

(3,544.40)

0.90

1,199.60

(29.55)

(29.55)

SEASONS FURNISHINGS LIMITED

135.64

(635.04)

(635.04)

(635.02)

(635.02)

739.39

(8.59)

(8.59)

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results for the Quarter and year ended on

31.03.2020 filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing and other disclosure requirements)

Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual standalone Financial Results for the Quarter and year ended on

31.03.2020 are available on the website of the stock exchange (www.bseindia.com) and the company's website

The above results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND AS), the provisions of

The above results have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their

Companies Act, 2013 as applicable guildlines issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI)

Earnings Per Share (of Rs. 104 each) (for continuing and discontinued operations):

Quarter ended

153.55

(92.12)

(92.12)

(92.49)

(92.49)

739.39

0.01

0.01

31.03.2020 31.12.2019 31.03.2019 31.03.2020 31.03.2019

213.69

1.11

1.11

0.91

0.91

739.39

0.01

0.01

31.03.2019

(Audited)

338.35

(7,276.20)

(7,276.20)

(7,276.20)

0.20

(60.66)

(60.66)

1. The above financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the

2. The above is an extract of the detailed format of Quarter and Financial Results Ended Financial Results filed with the

**EMMSONS INTERNATIONAL LIMITED** 

CIN No.: L74899DL1993PLC053060 Regd. Office: 101/12, Community Centre, Zamrudpur, New Delhi-110048

Tel: 91-11-29247721-25, Fax: 91-11-29247730

E-mail: corporate@emmsons.com, Website: www.emmsons.com

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER & YEAR ENDED MARCH 31, 2020

31.03.2020

(Audited)

0.38

(3,931.29)

(3.931.29)

(3,931.29)

(14.34)

(32.77)

(32.77)

The above Audited financial results for the quarter and year ended 31st March, 2020 have been reviewed by the Audit Committee and

The above is an extract of the detailed format of Standalone Financial Results for the quarter and year ended 31" March, 2020 filed with the

Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of these

CIN - L18101DL1986PLC024058 Registered office: 64, Ground Floor Ring Road, Lajpat Nagar -III, New Delhi 110 024

Email: cs.sfl@seasonsfurnishings.com, Website: www.seasonsfurnishings.com Phone No. 011-41582040

EXTRACTS OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR

THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

1,199.60

Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The full format of the Quarter Ended Financial Results are available on the Stock Exchange websites

Quarter Ended

31.03.2019

(Audited)

1005.05

36.77

30.74

531.18

157.91

0.58

0.58

(Rs. In Lakhs)

31.03.2019

(Audited)

1094.49

23.43

17.40

531.18

157.91

0.33

0.33

Director

By order of the Board (Subodh Gupta)

(Amount in Rs. Lacs except EPS)

0.84

31.03.2020

(Audited)

(15,520.03)

(15,520.03)

(15,520.03)

(9.58)

1,199.60

(129.38)

(129.38)

(168,872.26)

by the order of the Board

for EMMSONS INTERNATIONAL LIMITED

Anil Kumar Monga

(Chairman and Managing Director)

Year ended

679.33

1.51

1.51

1.25

1.25

739.39

0.02

0.02

590.24

(727.93)

(727.93)

(727.17)

(727.17)

739.39

(9.85)

(9.85)

For and on behalf of the Board of Directors

(Mandeep Singh Wadhwa)

Chairman & Managing Director

Year Ended

31.03.2019

(Audited)

1.437.53

(20,029.86)

(20,029.86)

(20,029.86)

9.81

1,199.60

(166.97)

(166.97)

(153,342.64)

(DIN:00006243)

Year Ended

31.03.2020

(Audited)

911.92

19.60

14.93

531.18

172.83

0.28

0.28

**Particulars** 

Net Profit/(Loss) for the period before tax

Net Profit / (Loss) for the period after tax

8 Earnings per share (of Rs. 10/- each)

Net Profit/(Loss) for the period

5 Less: Minority Interest

Equity Share Capital

ii) Diluted

Place : Delhi

Date: 31.07.2020

interest thereon

Kamal, 132001

Chemical Trading Co. Pvt. Ltd.

Place: Manimajra, Chandigarh

Date: 31.07.2020

Name of the Branch

& Account

Total Income from Operations and Other Income

(After Exceptional and / or Extraordinary items#)

(after exceptional and / or Extraordinary Items)

(for continuing and discontinued operations)

(Before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items#)

Total Comprehensive Income for the period [Comprising profit / (Loss)

for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]

Director

For Progressive Finlease Limited

Rajeev Jain Director

DIN: 03438127

(Rs. in Lakhs)

Year Ended

# **FE SUNDAY**

JDS FINANCE COMPANY LIMITED

CIN: L65999DL1984PLC018035 Regd. Office: 307, Lusa Tower Azadpur Delhi - 110033

E-mail id : info@jdsfinance.in Website : www.jdsfinance.in, Phone No. 011-40424242 Extract of Audited Financial Results for the Year and Quarter Ended 31 March, 2020 (Rs in lakhs) Year Ended Quarter Ended **Particulars** 31.03.2020 31.03.2019 31.03.2020

31.03.2019 Audited Audited Audited Total income from operations 13.67 22.66 40.82 80.87 Net Profit for the period before tax 5.02 6.56 0.94 8.51 Net Profit for the period after tax 5.54 0.54 6.88 4.62 573.50 573.50 573.50 Equity Share Capital 573.50 16.04 14.41 16.04 14.41 Reserves Earning Per Share (of Rs10/- each share) (for continuing and discontinued operation 0.08 0.10 0.01 0.12

Note: The Above is an extract of the detailed format of Quarterly/Yearly end financial results filed with the Stock Exchange under Reg 33 of SEBI (LODR), 2015. The full formats are available on Stock Exchange websites and on Company's website. For JDS Finance Company Ltd. Anshu Jain

Date: 31.07.2020

PROGRESSIVE FINLEASE LIMITED Regd. Office: S-2 Ground Floor, Plot No.- A-2/3, Lusa Tower Azadpur Delhi - 110033 E-mail id: info@progressivefinlease.in, Website: www.progressivefinlease.in

CIN: L65910DL1995PLC064310, Phone No. 011-40424242

Extract of Audited Financial Results for the Year and Quarter Ended 31\* March, 2020

V2.53.53	Quarte	Ended	Year Ended		
	31.03.2020 Audited	31.03.2019 Audited	31.03.2020 Audited	31.03.2019 Audited	
Total income from operations	106.15	350.54	568.58	10,793.13	
Net Profit for the period before tax	95.43	58.08	3.57	52.39	
Net Profit for the period after tax	94.91	47.35	3.06	41.66	
Equity Share Capital	894.70	894.70	894.70	894.70	
Reserves	100.10	99.49	102.55	99.49	
				0.47	
	Net Profit for the period before tax  Net Profit for the period after tax  Equity Share Capital  Reserves  Earning Per Share (of Rs10/- each share)	Particulars  31.03.2020 Audited  Total income from operations  Net Profit for the period before tax  95.43  Net Profit for the period after tax  94.91  Equity Share Capital  Reserves  100.10  Earning Per Share (of Rs10/- each share)  (for continuing and discontinued operation)	Audited   Audited	Particulars   31.03.2020   Audited   350.54   568.58	

(b)Diluted Note: The Above is an extract of the detailed format of Quarterly/Yearly end financial results flied with the Stock Exchange under Reg 33 of SEBI (LODR), 2015. The full formats are available on Stock Exchange websites and on Company's website. For and on behalf of the Board

Date: 31.07.2020

The borrower's in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property/ies and Place: Delhi

PUBLIC NOTICE

This Public Notice is being issued to inform all the Public Deposit Holders of M/s Hind Inns & Hotels Limited (Corporate Debtor) that Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) has been initiated in respect of the Corporate Debtor under the Inscivency and Bankruptcy Code 2016 (IBC) vides the order of the Hon'ble National Company Law Tribunal, Chandigath Bench dated 31st October, 2019 and vide the same order the undersigned is appointed as Interim Resolution Professional. The IRP was confirmed as the Resolution Professional in the 4th COC meeting held on 28th February, 2020.

Pursuant to Regulation 6 of the IBBI (CIRP) Regulations, 2016, Public

Announcement has been published in two newspapers 'Financial

Express" and "Amar ujala" on 03.12.2019, for inviting claims from all the creditors including the public deposit holders and the last date of submission of claim was 16.12.2019. Further, Resolution Professional issued Letters to all Public Deposit Holders at the addresses provided by the Corporate Debtor Till date, only few public deposit holders have field

In the matter of Hind Inns & Hotels Limited

31.03.2020 31.12.2019 31.03.2019 31.03.2019 31.03.2020

Date: 01.08.2020

Email id:- mandeepgural.ip@gmail.com; Place: Chandigarh Hindings ip@gmail.com

Quarter Ended

# NAM SECURITIES LIMITED

CIN: L74899DL1994PLC350531 Registered Office: 213, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, New Delhi-110001 Email Id: compliance@namsecurities.in, Website: www.namsecurities.in Extract of Audited Financial Result for Quarter and Year Ended 31" March, 2020

(Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) 1253.63 1120.33 1549.03 6445.80 6702.41 Total Income from Operations 26.04 49.31 Net Profit/(Loss) for the period (9.04)21.74 32.42 (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items) 49.31 Net Profit/(Loss) for the period before (9.04)26.04 21.74 32.42 Tax (after Exceptional and /or Extraordinary items) Net Profit/(loss) for the period after (10.35)26.04 17.89 29.77 39.96 Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the 26.04 17.89 29.77 39.96 (10.35)period(Comprising profit/(loss) for the period after tax and other comprehensive income after tax) 305.01 Equity Paid-up Share Capital 305.01 305.01 305.01 305.01 Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)

The above is an extract of the detailed format of results for quarter and financial year ended March 31 2020 filed with BSE under Regulation 33 of SEBI (LODR) 2015. The full format of the said financial results are available on the websites of the BSE (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.namsecurities.in).

-0.34

0.85

0.59

0.98

1.31

. The Company has adopted Indian Accounting Standards notified under Section 133 of Companies Act, 2013 and SEBI circular dated July 05, 2016. Accordingly, the impact of transition from erstwhile GAAP to IND AS has been recorded in the financial results and the transition date being April 01, 2018. The above Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by

the Board of Directors at its meeting held on July 31, 2020.

The statutory Auditors have carried out an Audit of the financial results as required under Regulation 33 of the SEBI (LODR), 2015 and have issued an unmodified opinion thereon

On behalf of the Board of Directors For Nam Securities Limited

(Kiran Goyal) Place: New Delhi Managing Director Date: 31.07.2020 DIN No. 00503357

their claims in Form-CA to the undersigned. Notice is hereby given to all those Public Deposit Holders of the Corporate in Form-CA to submit their Claim to the undersigned immediately.

Debtor (M/s Hind Inns & Hotels Limited), who have not yet filed their claim The undersigned can be contacted for any clarification.

Mandeep Gural (Reg. No IBB/IPA-001/IP-P00507/2017-2018/10908) Resolution Professional

Mobile: 098142-28288

**Particulars** 

Basic & Diluted

Notes:

## ADHBHUT INFRASTRUCTURE LIMITED (CIN: L51503DL1985PLC020195)

Authorised Officer Punjab National Bank, Secured Creditor

Regd Off: D-15 Pamposh Enclave, Greater Kailash-1 New Delhi 110048 Ph: +91-11-45210051 | E-mail: adhbhut.ind@rediffmail.com | Web: www.adhbhutinfra.com

CORPORATE MERCHANT BANKERS LIMITED

CIN:L74899DL1994PLC061107

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter & Year ended 31st March, 2020 (Rs. In Lakh)

Standalone Financials

Ended

5.83

-0.71

0.00

Year

Ended

Audited | Audited | Audited | Audited

17.81

0.21

0.00

0.15

0.15

330.00

0.00

0.00

...the name you can BANK upon !

Date of

Possession

27.07.2020

31-03-20 31-03-19 31-03-20 31-03-20 31-03-19 31-03-20

Quarter Quarter

Ended

10.05

-0.06

0.00

-0.06

330.00 330.00

-0.02

-0.02

0.00

0.00

iote: 1. The above is an extracts of the detailed format of Statement of Standalone and consolidated audited financial results filed with the BSE limited

under regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed financial results and this extracts

were reviewed by the audit committee and approved at the meeting of the Board of Directors of the company at the meeting held on 31.07.2020. The

full format of the statement of standalone and Consolidated Audited financial results is available on the Company's website (www.cmbl.co.in) and on

A Limited Review as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been

completed on the detailed financial results for the quarter and year ended 31" March, 2020 filed with the BSE Limited and MSEI. This report

पंजाब नेशनल बेंक 📵 punjab national bank

BRANCH OFFICE: NAC, MANIMAJRA, UT CHANDIGARH, E-mail: BO1183@pnb.co.in

POSSESSION NOTICE

Whereas, Punjab National Bank/the Authorised Officen's of the Punjab National Bank under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers

conferred under Section 13 read with the Security Interest(Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice/s

on the dates mentioned against the account calling upon the respective borrower/s to repay the amount as

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of Section 13 of Act read with Rule 8 of the Security

The borrower's/ guarantor's/ mortgagor's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section

any dealing with the propertyles will be subject to the charge of Punjab National Bank for the amounts and

M/s Polican Grand House No. 15, Mall Road, opp. Red Cross Kamal, Haryana - with further Interest

Motels Pvt. Ltd., Regd. 132001 (2) Sh. Jitender Mittal Sio Late Sh. Niranjan Das, and costs/charges

Office at # 117, Anand House No. 117 Anand Whar, Pilampura Delhi 110034, & with effect from

Vihar, Pitampura, New Guarantors/ Mortgagors (1) Smt. Vijay Laxmi Wio Sh. Bhagat 01.11.2019, Tess

Unit (Vivaan Resorts) Haryana - 132001, (2) M/s Sri Ambey Chemical Trading Company Pvt. Ltd. G-9.

near Haveliat GT Road, Room No. 12, Lawrence Road, Industrial Area, Delhi-110035, C-35/14 Lawrence Road.

DESCRIPTION OF MOVABLE/ IMMOVABLE PROPERTY

All that part & parcel of Land, Building & plant and Machinery etc., under the name & style of VIVAAN Resorts

admeasuring 34 Kanal 16 Maria is 4.35 acre with in Khewat No. 100, Khatauni No. 123, Rect. No. 3, Killa No.

5[3K-7M], Kila No. 7(6k-6m), Killa No. 14[6K-16M], killa No. 15(8K - 0M], Killa No. 16/1(0K-18M), Killa No. 17/

(BK-12M), Rect. No. 4, Killa No. 11(BK-4M), Killa No. 12/1(0K-13M), Kite-8, which is located at NH-1, in village

Jhanjhari, Tehsil Nilokheri, Distt. Karnal vide RTD No 2228/1 dated 10:02:2005, including 30 years lease hold

rights of this land in favour of M/s. Pelican Grand Motels Pvt Ltd., in the name of Sh. Yogesh Kumar Gupta S/o

Second floor of commercial property No. 97, Yogash Tower, situated at Jamaily Kethi Kunipura Road Kamal

3. DLF Commercial Property No. DSM-359 at DLF Tower, 3rd Floor, 15 Shiva Ji Marg, Nazafgarh Road with

Parking Space No. PB2041, New Delhi vide RTD No 688 dated 18.01.2013, in the name of M/s Sri Ambey

vide RTD No 12571/1 Dated 16:03:2015 in the name of Smt. Vijay Laxmi W/o Sh. Bhagat Ram Gupta.

Delhi- 110034 and its Ram Gupta, House No. 15, Mall Road, opp. Red Cross Karnal, recovery flany.

Date of

Demand

02.11.2019

mentioned against the account within 60 days from the date of notice(s)/date of receipt of the said notice(s).

the website of BSE Limited (www.bseindia.com) and on the webiste of Metropolitan Stock Exchange of India (www.msei.in).

does not have any impact on the Results and Notes for the Quarter and year ended 31" March, 2020.

Interest Enforcement) Rules, 2002 on the date mentioned against the account.

Name of Borrower

(Owner of the property)

Industrial Area, Delhi 110035.

Sh. Bhagat Ram Gupta & Smt. Vijay Laxmi Wile. Sh. Bhagat Ram Gupta.

13 of the Act in respect of time available to redeem the secured assets.

NAC, MANIMAJBA, Directors/Guarantors (1) Sh. Yogash

UT CHANDIGARH Gupta Slo Sh. Bhagat Ram Gupta,

Consolidated Financials

Ended

5.83

-0.97

0.00

-0.77

-0.77

330.00

-0.02

-0.02

P Venkateshwar Reddy

Amount Outstanding

as on the date of

demand notice

Rs. 25,51,55,184.38

as on 01.11,2019

(D.K. SINGH, CHIEF MANAGER)

Ended

Audited

17.81

-0.04

0.00

-0.10

-0.10

330.00

0.00

0.00

Quarter Quarter

Ended

10.05

-0.31

0.00

-0.31

330.00

-0.01

-0.01

Reg. Office: UG-24, Vishwadeep Tower, District Centre, Janak Puri, New Delhi- 110 058

EXTRACT OF THE STATEMENT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS

		8		W.	(Rupe	es In Lacs)			
	BEHAND AV	Standalone							
SI.	Particulars		Quarter Ende	Year Ended					
No.	Ž.	31.03.2020 (Audited)	31.12.2019 (Unaudited)	31.03.2019 (Audited)	31.03.2020 (Audited)	31.03.2019 (Audited)			
1	Total Income from operations	6.18	6.00	6.00	18.18	12.00			
2	Net Profit' (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	-7.06	-5.19	-6.90	-26.56	-17.80			
3	Net Profit/ Loss for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	-11.32	-5.19	-6.90	-898.32	-17.80			
4	Net Profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	-11.32	-5.19	-6.90	-898.32	-17.80			
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after) tax & other Comprehensive Income (after tax))	-11.32	-5.19	-6.90	-898.32	-17.80			
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/ each)	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00			
7	Other Equity as shown in the Audited Balance sheet Earnings per Share(of Re 10/- each) for continuing and discontinued operations)-	-	-	_	(138.35)	759.97			
	a Basic	-0.10	-0.05	-0.06	-8.17	-0.16			
	b Diluted	-0.10	-0.05	-0.06	-8.17	-0.16			

Note: The above is an extract of the detailed format of Audited Standalone Financial Results for the quarter and year ended 31st March: 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Result for the quarter and year ended 31st March, 2020 are available on the websites of the Stock Exchange: www.bseindia.com and on the Company's website:www.adhbhutinfra.com

The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on

 The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote

 Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS Rules. whichever is applicable FOR ADBHUT INFRASTRUCTURE LIMITED

Place: New Delhi Anubhav Dham (Whole time Director)

Date: 31st July 2020

(Rs. In Lakhs)

# NEW ERA LEASING AND FINANCE LIMITED

Ragol. Office: 981, Aggarwal Millemum, Tower-II, Netaji Suphash Place, District Centre, Wazirbur, Obb. TV Tower, Pitambura, New Delhi-110034, Email ID: neweraleaanofinance@omail.com.

CIN: L67120DL1984PLC018800, Telephone: 011-69999350 Extract of Standalone Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2020

SI. No.	Particulars	(31.03.2020) (Audited)	(31.12.2019) (Unaudited)	(31.03.2019) (Audited)	(\$1.03.2020) (Audited)	(31.03.2019) (Audited)
1	Total Income from Operations	923	-	4.00	923	18.03
2	Net Profit / [Loss] for the period [before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items]	4.14	[1.29]	(3.43)	4.69	1.19
3	Net Profit / [Loss] for the period before Tax [after Exceptional and/or Extraordinary items]	4.14	[1.29]	(3.43)	4.69	1.19
4	Net Profit / [Loss] for the period after Tax [after Exceptional and/or Extraordinary items]	4.09	[1.29]	[3.43]	4.65	0.87
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / [Loss) for the period [after tax) and other Comprehensive Income [after tax)]	4.09	[1.29]	(3.43)	0.13	0.87
6	Equity Share Capital   Face Value is Rs. 10/- per share)	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
7	Reserves Jexcluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet at 31st March	S5		5	[44.03]	[44.16]

 The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 2. The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respectative meeting

-0.0032

0.0102

3. The financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in the Ind AS 34 "Interim Financial" Reporting', prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India.

> On Behalf of the Board For New Era Leasing and Finance Limited Ras Bihari Sharma

0.0003

0.0003

SUPERIOR INDUSTRIAL ENTERPRISES LIMITED Regd. Office:-25,Bazar Lane, Bengali Market,New-Delhi-110001 CIN: L15142DL1991PLC046469, Tel. No.: 011-43585000, Fax: 0141-43585015, E-mail: info@superiorindustrial.in, Website: www.superiorindustrial.in

		Regulation	47(1)(b) of S		, 2015				Rs. In Lacs)
		5.00		Standalone				Consolidated	
SI. No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended		Quarter Ended	Year Ended	
NU.	AUADON AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN		31.12.2019 (Unaudited)	31.03.2019 (Audited)	31.03.2020 (Audited)	31.03.2019 (Audited)	31.03.2020 (Audited)	31.03.2020 (Audited)	31.03.2019 (Audited)
1. 2.	Total Income from Operations Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	173.42 (23.90)	73.26 (14.91)	94.97 (37.72)	671.49 (55.22)	451.17 (45.92)	722.19 (15.95)	2399.83 (36.95)	1864.49 (91.74)
3.	Net Profit/(Loss) for the period (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(23.90)	(14.91)	(37.72)	(55.22)	(45.92)	(15.95)	(36.95)	(91.74)
4.	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(23.90)	(14.91)	(37.72)	(55.22)	(45.92)	(15.95)	(36.95)	(91.77)
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after Tax) and other Comprehensive Income (after tax)	112.88	(14.91)	3.43	81,56	(4.77)	120.83	99.83	(50.62)
6.	Equity Share Capital (face value of Rs.10/- per share)	138.5	138.5	138.5	138.5	138.5	138.5	138.5	138.5
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			¥	2611.02	2529.46		4596.90	3794.16
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/-each) for continuing and discontinuing operations) Basic: Diluted:	(0.17) (0.17)	(0.11) (0.11)	(0.27) (0.27)	(0.40) (0.40)	(0.33) (0.33)	(1.49) (1.49)	(3.31) (3.31)	(5.00) (5.00)

The above is an extract of the detailed format of the standalone and consolidated financial results for the guarter ended on 31st March, 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of standalone and consolidated financial results is available on the Stock Exchanges' websites-(www.bseindia.com) and the Company's website (www.superiorindustrial.in) The above audited financial results were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved at the meeting of the Board of Directors held on 31st July, 2020.

> By order of the Board of Directors For and on behalf of Superior Industrial Enterprises Limited

Kamal Agarwal Managing Director

CIN: L24239HR1984PLC040797 egd. Off.: Lotus Green City Sector 23 8 24, Bhiwadi Alwarbypass 75 Mtr. Road Dharuhera, Rewari 123401 Ph: +91-7419885077 E-mail: newtimeinfra2010@gmail.com Website: www.newtimeinfra.in POSTPONEMENT OF BOARD MEETING

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that due to unavoidable circumstances the meeting of Board of Directors of the Company which was originally scheduled on Thursday, 30th July, 2020 is postponed to be held on Thursday, 06th August, 2020, inter alia, to consider and approve Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and year ended 31" March, 2020... The said Notice may be accessed on the Company's website at https://www.newtimeinfra.in/ and the

website of BSE http://www.bseindia.com/. For Newtime Infrastructure Limited Ashish Pandit (Director) Date: 30.07.2020

DIN: 00139001 Place: New Delhi

financiale

Place: New Delhi Date: 31.07.2020

Diluted:

held on 31 st July, 2020.

-0.0086

-0.0086

(Managing Director) DIN:06804500

0.02

. The figures of the previous year/quarter have been regrouped/rearranged whenever necessary to correspond with the current year figures, Date: 31st July,2020

New Delhi

Place : Delhi

# B.C. POWER CONTROLS LIMITED

Regd. Office: 7A/39, WEA Channa Market, Karol Bagh, New Delhi-110005 Website: www.bcpowercontrols.com E-mail: info@bonlongroup.com Tel: 011-47532795 Fax: 011-47532798

Extract of Standalone Audited Financial Results for

	the Quarter/Year Ende	u Marcii 3	1, 2020	(₹ in Lakhs excep	ot per share data	
SI. No.	Particulars	Quarter ended 31.03.2020	Year ended 31.03.2020	Corresponding Quarter ended of the Previous Year 31.03.2019	Corresponding Year ended of the Previous Year 31.03.2019	
		(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	
1	Total Income from Operations	3,056.18	19,255.02	8,732.75	48,369.01	
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(58.41)	146,42	42.74	345.47	
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(58.41)	146.42	42.74	345.47	
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(43.91)	103.94	28.06	222,92	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(43.91)	103.94	28.06	222.92	
6	Equity Share Capital	1,176.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			<u>0498700000€</u>	1,821.86	
8	Earnings Per Share (of ₹ 02/- each) (for continuing and discontinued operations)- (a) Basic (in ₹ )	(0.07)	0.18	0.05	0.38	

Notes: The above is an extract of the detailed format of Audited Standalone Financial Results for the quarter/year ended March 31, 2020 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone Financial Results for the guarter/year ended March 31, 2020 are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and on the Company's website www.bcpowercontrols.com For and on behalf of the Board of Directors

(0.07)

Place: New Delhi

(b) Diluted (in ₹)

Date: 31.07.2020

Arun Kumar Jain **Managing Director** DIN -00438324

For B.C. POWER CONTROLS LIMITED

STARLIT

**Pure Power Sure Power** 

# स्टारिलट पॉवर सिस्टम्स लिमिटेड

सीआईएन : L37200DL2008PLC174911 पंजीकृत कार्यालयः ए-1/51, एलजीएफ, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली-110029 दूरभाष नं:: p11-26102570, फैक्स: p11-26102670, ई-मेल: info@starlitgroup.net,

चेब: www.starlitlead.com

31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष हेतू लेखापरीक्षित रहैण्डएलोन वित्तीय परिणामों का विवरण रहैण्डएलोन वित्तीय परिणाम राशि (रु.) लाख मे

क्र.स.	विवरण	5 - 20	सपापा तिपारी		सपापा वर्ष		
		उन पार्च, २०२० (लेखापरीक्षित)	31 दिसम्बर, 2019 (अलेखापरीक्षित)	31 पार्च, 2019 (लेखापरीक्षित)	31 पार्च, 2020 (लेखापरीक्षित)	31 पार्च, 2019 (लेखापरीक्षित)	
1	प्रवातनों से कृत अय	435.16	232A1	192,94	1150.12	1.291.33	
2	अवधि हेनू निक्त लाभ/(हानि) (कर. अमनादित नमा/अमना असाधारण महीं से मूर्व)	(78.65)	(121.95)	(199.22)	(429.21)	(511.61)	
3	कर पूर्व अवधि हेतु निकल लाभ(हानि) (अपवादित तम्प्रअपवा असाधारण पदों के परवात)	(78.65)	(121.95)	(19922)	(429.21)	(511.61)	
4	कर परवात अवधि हेनु निबल लाभ्य(हानि) (अम्बादित तम्प्रअम्बा असाधारण पदों के परवात)	355.69	(124.42)	(272.11)	(170.34)	(403.23)	
5	अवधि हेतु कुल व्यापक अय (अवधि हेतु लाभ्य (हानि) (कर परवान) तमा अन्य व्यापक अय (कर परवान) सहित]	355.68	(124.42)	(272.11)	(17034)	(403.23)	
6	इक्किटी शेयर पूँगी	1.006 50	1:006:50	1,006,50	1.006.50	1,006,50	
7	अाय प्रति शेयर (रु. १८४ - प्रत्येक के) (स्तत एव अस्तत प्रचालनों हेतु)					71	
	पृत :	354	(1-24)	(2.70)	(1-69)	(4.01)	
	बाह्रत्यूरेव :	354	(1-24)	(2.70)	(1-69)	(4.01)	
	Transco.	V -	900 00 0	524 224	20 70 11	77	

1. उपर्युक्त अलेखापरीक्षित परिणामों की समीक्षा बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गयी है और 30 जुलाई, 2020 को आयोजित निदेशक मण्डल की बैठक में रिकार्ड पर लिया गया है। यह विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 एवं यथाप्रयोज्य अन्य मान्यताप्राप्त लेखांकन रीतियों तथा नीतियों के तहत निर्धारित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (इण्ड एएस) के अनुसार तैयार किया

उपर्युक्त सेची ( सूचीचद्धता एवं अन्य प्रकटन अपेक्षाएँ), विनियम 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दर्ज तिमाही विजीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। समाप्त तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंन की वेबसाइट (www.bseindia.com) पर उपलब्ध है तथा कम्पनी की वेबसाइट (http://www.starlitpower.com) पर अपलोड है।

कते स्टारिलट पाँचर सिस्टम्स लिमिटेड

दिव्या गर्ग

नई दिल्ली 30 जुलाई, 2020

निदेशक डीआईएन 00602690

# G. K. CONSULTANTS LIMITED

Registered Office: 302, G. K. House, 187-A, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110 065 CIN: L74140DL1988PLC034109

EXTRACT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31" MARCH, 2020 (Rs. In Lakhs)

0.00	Quarter	Ended	Year E	nded	
PARTICULARS	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019	
	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	
Total Income From operation(net)	672.32	1005.05	911.92	1094.49	
Net Profit/(Loss) from ordinary activities before tax	-43.33	36.77	19.60	23.43	
Net Profit/(Loss) for the period after tax	-48.00	30.74	14.93	17.40	
Equity Share Capital	531.18	531.18	531.18	531.18	
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	172.83	157.91	172.83	157.91	
Earnings Per share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each Basic and diluted (Rs.)	-0.90	0.58	0.28	0.33	
Earnings per share (after extraordinary items) (of Rs. 10/ each Basic and diluted (Rs.) (EPS for the period not annualised)	-0.90	0.58	0.28	0.33	

NOTES:

The above financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the

Board of Directors at its meeting held on 31" July, 2020.

2. The above is an extract of the detailed format of Quarter and Financial Results Ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter Ended Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com) and on company's website www.gkconsultantsltd.com.

Place: New Delhi Date: 31/07/2020 SUBODH

By order of the Board (Subodh Gupta) Director (DIN:00006243)

# विकास ईंकोटेक लिमिटेड

CIN: L65999DL1984PLC019465 पंजी. कार्यालयः विकास हाउस, ३४/१, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026

फोन: 011-43144444 | फैक्स नं.: 011-43144488 | ई-मेल: cs@vikasecotech.com | यूआएल: www.vikasecotech.com 31 मार्च, 2020 को समाप्त चौथी तिमाही तथा वर्ष के लिये अंकेक्षित किरीय परिणामी ( स्टैंडएलॉन ) का सार

जा नावा रुपरेप का सनाना वाचा ।।।	नाहा ग्रमा जन का	ाटाच अचगद्यात ।जतार	a Altalial ( took	Half An And	A - 2 - 2
					रुलाओं में
ाण्डाबर्वे	सपापा तिपारी 31 मार्च, 2020 (अंकेक्षित)	सपाप्त तिपारी 31 दिसम्बर, 2019 (अंकेक्षित)	सपाप्त तिपारी 31 पार्च, 2019 (अंकेक्षित)	समाप्त वार्ष 31 मार्च, २०२० (अकिकित)	समाप्त वर्ष ३१ मार्च, २०११ (अकिकित)
प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	3635.37	5173.35	8326.14	19218.86	24525.04
असाधारण पदों तथा कर से पूर्व शुद्ध लाभ	(976.40)	11.49	447.84	(548,91)	2482.69
कर से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	(976.40)	11.49	447.84	288.39	2482.69
कर से बाद शुद्ध लाभ	(679.56)	(156.46)	301.11	101.82	1500.52
अविध के लिये कुल व्यापक आय	(679.42)	(15726)	301.86	(109.67)	1519.16
इक्षिवटी शेयर पूंजी	2799	2799	2799	2799	2799
अन्य इविवरी				11500	11391
आय प्रति शेयर (रु. १/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए)	2				
1. पूल	(0.24)	(0.06)	0.11	0.04	0.54
2. तरल	(0.24)	(0.06)	0.11	0.04	0.54

1. उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंजों में दाखिल की गई तिमारी/वार्षिक वित्तीय परिणामीं के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाती/वार्षिक वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट ( www.bseindia.com) पर उपलब्ध है।

2. उपरोक्त परिणामों की ऑडिट कमिटी डारा समीक्षा की गई तथा 31 जुलाई, 2020 को आयोजित उनकी बैटक में निदेशक मंडल डारा अनुमोदित किए गए हैं। कम्पनी के सांविधिक आडिटरों द्वारा यह ऑडिट की गई है तथा उन्होंने सीमित समीक्षा रिपोर्ट बारी किए हैं।

विकास ईकोटेक लिगिटेड के लिए विकास गर्ग प्रबंध निदेशक

निदेशक मंडल के आदेश से

DIN: 00255413

# छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में दो नक्सली गिरफ्तार

बीजापुर, १ अगस्त (भाषा)।

# अग्रवाल डुप्लैक्स बोर्ड मिल्स लिमिटेड

CIN No. L99999DL1984PLC019052

पंजीकृत कार्यालय : 217, अग्रवाल प्रेसटीज मॉल, प्लॉट नं. 2, कम्यूनिटी सेंटर, अलॉन्य रोड नं. 44, पीत मपुरा, दिल्ली-110034 बोर्डः + 91 1147527700 फीयसः +91 11 47527777

ई - मेलः agarwalduplex 1984@gmail.com, वेबसाइटः www. agarwalduplex.net 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही व वर्ष के लिए अंकेक्षित वितीय परिणाम

(स्टैंडएलॉन) (रुलाख में) (अकेकित) 15035.03 विधि के लिए तुद्ध लाभ/(हानि) (कर एवं असाधारण मदों से पृथी) 159.52 अ कर से महते अवधि के तिए शुद्ध ताभि(हानि) (असाधारम पदों के बाद 15234 44.11 76.57 कर के बाद अवधि के लिए सुद्ध लाभ (हानि) 128.68 14.33 33.37 69.A1 11830 11.72 111.00 के बाद) से शापित 1350.00 1350.00 1350.00 आरक्षित (पुनप्रेत्याकन आरक्षित को छोड़कर) 1235.59 1346.53 1235.53 1346.58

0.11

0.11

0.29

0.29

0.51

0.51

1. बीसिक

2. डायत्यूप्टिड

1. ठक्त सेबी (सूचीबद्ध और अन्य देयताएं आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के नियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजस के साथ दायर तिमाही व वार्षिक अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही व वार्षिक अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.msei.in) पर भी ठपलब्ध है।

2. उक्त परिणामों की लेखा समिति द्वारा समीक्षा व सिफारिश की गई थी और 31.7.2020 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में उनके द्वार रिकॉर्ड में लिए गए थे और वैधानिक लेखा परीक्षकों ने वित्तीय विवरणों की ऑडिट की है तथा इन वित्तीय परिणामों पर गैर-संशोधित रिपोर्ट अभिव्यक्त किये हैं।

आग्रवाल डुप्लैक्स बोर्ड मिल्स लिमिटेड

स्थानः दिल्ली दिनांकः 31.7.2020

नीरज गोयल प्रबंध निदेशक डीआईएन: 00017498

0.85

0.85

0.95

0.95

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने अलग-अलग स्थानों से दो नक्सलियों को गिरफ्तार किया है।

साथ ही बीजापुर जिले के पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को यहां बताया कि पुलिस दल ने जिले के भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत तिंडोडी गांव से नक्सली महेश यादव (32) को व बीजापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चिलनार गांव से मनकु मोर्डियम (32)

को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में अलग-अलग स्थानों पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जिला बल के संयुक्त दल को गश्ती पर रवाना किया गया था। इसके साथ ही उसी दौरान गश्ती दल ने दोनों नक्सलियों को गिरफ्तार किया।

अधिकारियों ने बताया कि यादव पर आरोप है कि वह इस वर्ष एक जुलाई को जिले के माटवाड़ा गांव में पुलिस जवान सोमारू पोयाम की हुई हत्या में शामिल था। इस घटना में सोमारू के माता-पिता भी घायल हुए थे।

मोडियम पर आरोप है कि वह 2011 में पामलवाया गांव के समीप पुलिस कर्मी की हत्या व उससे एके 47 रायफल लूटने की घटना में शामिल था। इसके साथ ही पुलिस को मोडियम की तलाश थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सली 28 जुलाई से तीन अगस्त तक शहीद सप्ताह मना रहे हैं।

इसके साथ ही शहीद सप्ताह को देखते हुए बस्तर क्षेत्र के सभी सात जिलों- बस्तर, कांकेर, कोंडगांव, नारायणपुर, दंतेबाङ्ग, बीजापुर और सुकमा में सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया गया है व नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है।

# CASTEX TECHNOLOGIES LIMITED

(Formerly Known as Amtek India Limited) CIN No.: L65921HR1983PLC033789

Regd. Office: Village Narsinghpur Mohammadpur, Old Manesar Road Gurgaon Harvana-123106 Corporate Office: 3 LSC Pamposh Enclave, Greater Kailash-I, New Delhi-110048

Tel: +91-11-42344444 | Fax: +91-11-42344400 | E-mail: info@amtek.com | Web: www.amtek.com

EXTRACT OF THE STATEMENT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS

	20 - 0.00		.,,,==,,,,,	/100	- Part - All College					(R	ls. in Lakhs
Sr.				STAND	ALONE			CONSC	DLIDATE	D	
NO.	Particulars		Quarter End	ed	Year E	nded	(	Quarter Ended	d	the second secon	Ended
		31.03.2020 (Audited)	30.12.2019 (Un-Audited)	31.03.2019 (Audited)	31.03.2020 (Audited)	31.03.2019 (Audited)	31.03.2020 (Audited)	30.12.2019 (Un-Audited)	31.03.2019 (Audited)	31.03.2020 (Audited)	(Audited)
1,	Total Income from operations	6,924	6,992	9,974	29,683	46,069	6,924	6,992	9,974	29,683	46,069
2.	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	(12,814)	(12,636)	(12,927)	(51,219)	(52,324)	(12,814)	(12,635)	(12,927)	(51,215)	(52,324)
3.	Net Profit/Loss for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(12,814)	(12,636)	(13,520)	(51,219)	(74,942)	(12,814)	(12,635)	(13,520)	(51,215)	(74,941)
4.	Net Profit for the period after tax from continuing business (after exceptional and/or extraordinary items)	(12,814)	(12,636)	(13,520)	(51,219)	(74,942)	(12,814)	(12,635)	(13,520)	(51,215)	(74,941)
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	(12,730)	(12,636)	(13,520)	(51,134)	(74,748)	(13,021)	(12,745)	(15,128)	(51,753)	(81,957)
6.	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 2/-each)	7,562	7,562	7,562	7,562	7,562	7,562	7,562	7,562	7,562	7,562
	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	_		_	(136,897.23)	(85,763.01)	_		_	(91,753)	(40,000)
В.	Earnings per Share (F.V. of Re 2/- each) for continuing and discontinued operations)-		J		7			9			
	a Basic	(3.39)	(3.34)	(3.58)	(13.55)	(19.82)	(3.44)	(3.37)	(4.00)	(13.69)	(21.68)
	b Diluted	(3.39)	(3.34)	(3.58)	(13.55)	(19.82)	(3.44)	(3.37)	(4.00)	(13.69)	(21.68)

1. A corporate insolvency resolution process ("CIRP") has been initiated against Castex Technologies Limited ('the Company') vide an order of Chandigarh bench of the National Company Law Tribunal (NCLT) dated December 20, 2017 under the provisions of the insolvency and bankruptcy code 2016 (Code). Pursuant to the order, the power of the Board of directors stands suspended and are exercisable by Mr Dinkar 1 Venkatasubramanian, who was appointed as interim resolution professional (IRP) by the NCLT vide order dated December 22, 2017 and was consequently confirmed as Resolution Professional (IRP) by the Committee of Creditors (CoC) in its meeting held on January 12, 2018. Hon'able National Company Law Tribunal "Chandigarh Bench" vide their order No, CP (IB) No.116/Chd/Hry/2017dated 13th June 2018, approved the extension of CIRP period by 90 days (i.e. from 180 days to 270 days).

Further, the Committee of Creditors of CTL had approved the resolution plan submitted by Liberty House Group Pte Ltd (LHG) through e-voting process on August 30, 2018. The resolution plan, as approved by the Committee of Creditors of CTL, had also been subsequently submitted to Hon'ble National Company Law Tribunal "Chandigarh Bench" for consideration and approval as per the provision of the Code. However, in view of the failure by LHG to comply with steps envisaged in the process memorandum post CoC approved its Resolution Plan as well as continuing default by Liberty in implementing NCLT approved Resolution plans in other CIRPs, the CoC filed an application on 6th of December 2018 to withdraw Liberty's Resolution Plan and sought directions for exclusion of time spent with LHG for negotiating and finalising Resolution Plan and allow a fresh process to identify new resolution applicants for CTL.

Adjudicating Authority vide its Order dated March 15, 2019 has permitted the application for approval of the resolution plan to be withdrawn. Adjudicating Authority has also directed that the period from the date of acceptance of LHG as the preferred bidder i.e. May 18, 2018 till the receipt of the certified copy of the Order dated March 15, 2019 shall be excluded for counting the 270 days, permitted for completion of the insolvency resolution process. The Order has also allowed CoC to proceed with inviting fresh expression of interest from prospective investors. Accordingly, in terms of the said direction, the RP has invited a fresh expression of interest as on March 29, 2019 and has received six expression of interests in response till date.

"Appeal was filed by LHG against the order dated 15.03.2018, on 29.04.2019 before the Hon'ble NCLAT. During the pendency of the said appeal, the resolution professional moved an application seeking exclusion of certain time period due to the pending litigation. Therefore, Hon'ble NCLAT vide its order dated 16.07.2019 due to the pending litigation, exluded a period of 73 days for the purpose of calculating 270 days, which was completed on 11.07.2019, from 29th April (date of filing the appeal) to 11.07.2019. The period of 73 days were allowed to be counted from 17.07.2019, which expired on 28.09.2019. The CoC have vide another application dated 28.09.2019 sought exclusion/ extention from the Hon'ble NCLAT in view of Section 12(3) of the IBC Code. The honorable NCLAT vide order dated 11.12.2019 granted time for resolution till 31st January 2020. The resolution plan was submitted by Deccan Value on 17th January 2020 along with addendums dated 07th February 2020, 18th February 2020 & 9th March 2020. The resolution plan was put to vote and approved by COC on 16th March 2020. The Government of India ordered a lockdown on account of COVID 19. As a resilt, the hon'ble NCLT was not functional during that period and thus the application for approval of resolution plan under section 30(6) of IBC was filed by Resolution Professional of Castex in NCLT on 16th June 2020. The matter is pending before the Hon'ble Adjudicating Authority. In the meanwhile the Company is presently undergoing CIRP and the Resolution Process is underway in line with the provisions of IBC."

2. Post the commencement of CIR Process, the company is continuing to operate as a going concern in terms of the code. As the powers of the Board of Directors have been suspended, the above results have not been adopted by the Board of Directors.

3. As per the Code the RP has to receive, collate and all the claims submitted by the creditors of the company. The RP has verified and admitted the claims submitted by the creditors against the company as per the Code. Pending finalisation of resolution plan, the impact of such claims if any that also has not been considered in the preparation of the financial statements. Further, interest on the financial debt from the date of commencement of CIRP (i.e. from 20th December 2017 till 31st March 2020) has not been provided in the books of accounts and charged to the Profit and Loss account.

4. Considering the ongoing corporate insolvency resolution process (as mentioned in note 1 & 2), the uncertainity as to the realisation of unused tax losses and MAT credit available cannot be ascertained at this stage. Consequently, adjustments to defered tax (net) & MAT credit available have not been given effect to, during the period.

5. Considering the current operating levels of the Company, and the ongoing CIR Process it is not possible to determine; a. Impairment, if any, in the economic value of the fixed assets, and tools & dies; b. Diminution, if any, in the value of investments.

Trade receivables, loans & advances at March 31, 2020 (which are subject to confirmation & reconciliation), includes balances from the group entities, which are subject to confirmation/reconciliation and the recover ability assessment thereof is under process. 7 The company is in the business of Casting and Machining of steel products and hence has only one reportatble operating segment as per Ind AS 108 "operating segments". 8 The consolidated financials of the company include financials pertaining to its overseas subsidiary (held for sale), seven associate companies and a joint venture company. It may be noted that the RP of the Company has no control/ access over/ to the entities, which have been consolidated. The accounts of the overseas subsidiary and joint venture company are unaudited and have been considered on the basis of certification by the management of the entities being consolidated. 9 Amtek Global Technologies Pte Limited ('AGT'), in which the overseas subsidiary of the Company (i.e. Amtek Kuepper GmbH) holds stake, is under receivership in Singapore. Since the latest financial results for 31st March, 2020 were not available/ accessible to the overseas subsidiary, the investment in AGT held by Amtek Kuepper GmbH, has been valued based on the financial statements for 31 March 2017 for AGT, which has further been restated in INR due to change in rupee exchange rate. 10 The figures for the guarter ended 31st March, 2020 and 2019 are the balancing figures between the Audited figures in respect of full financial year and published year to date figures upto third quarter of the relevent financial year. 11 Previous year figures have been regrouped/rearranged wherever considered necessary to make them comparable with current period. 12 "The COVID-19 pandemic outbreak across the nation and worldwide and Consequential nationwide lock down imposed since March 24, 2020, has caused a significant decline and volatility in the global as well as Indian Financial markets and slowdown in the economic activities. For the Company, the focus immediately shifted to ensuring the health and well-being of all employees' The Company is sensitive about the impact of the Pandemic on its business operations, which will be realized only in the future financial

For CASTEX TECHNOLOGIES LIMITED

Ajay Kumar Chief Financial Officer

Sanjay Arora Whole time Director

न्यू टाइम इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

CIN: L24239HR1984PLC040797

पंजी. कार्याः लौटस ग्रीन सिटी, सेक्टर 2 एवं 24, भिवाड़ी अलवर बाईपास 75 मी रोड, धारुहेड़ा, रिवाड़ी 123401 Ph:+91-7419885077 E-mail: newtimeinfra2010@gmail.com; Website: www.newtimeinfra.in बोर्ड की बैटक का स्थगन सेबी (सुचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पटित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्डार सुचित किया जाता है कि अपरिहार्य कारणों से कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक गुरुवार 30 जुलाई, 2020 को आयोजित की जानी यी अब गुरुवार, 06 अगस्त, 2020 को आयोजित की बाएगी बिसमें अन्य विषयों के साथ 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के अंकेक्षित स्टैंडएलॉन तथा समेकित वित्तीय परिणामों पर अन्य विषयों के आलवे विचार

## विकास ईकोटेक लिमिटेड CIN: L65999DL1984PLC019465

पंजी. कार्यालयः विकास हाउस, ३४/१, हंस्ट पंजाबी बाग, नहें दिल्ली-110026

फोन: ७११-४३१४४४४४ | फैक्स नं.: ७११-४३१४४४८८ | ई-मेल: cs@vikasecotech.com | यूआएल: www.vikasecotech.com

30 जुन, 2020 को समाप्त प्रथम तिमाही के लिये अनेकेक्षित कितीय परिणामी (रटैंडएलॉन) का सार

हिहारण -	समाप्त तिमारी 30 जून, 2020 (अनेकेक्षित)	समाप्त तिमारी 31 मार्च, 2020 (अंकेशित)	समाप्त तिमारी ३० जून, २०१२ (अनेकेक्षित)	समाप्त वर्ष ३१ मार्च, २०२० (अंकेक्षित)
प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	746.82	3635.37	5313.33	19218.86
असाधारण पदों तथा कर से पूर्व शुद्ध लाभ	(528.76)	(976.40)	221.48	(548.91)
कर से पूर्व शुद्ध लाभ/सानि	(528.76)	(976.40)	221.48	288.39
कर से बाद शुद्ध लाभ	(528.76)	(679.56)	156.99	101.82
अविध के लिये कुल व्यापक आय	(529.24)	(679.56)	161.87	(109.67)
इचिवटी शेयर पूंजी	2799	2799	2799	2799
अन्य इक्षिवरी				11500
आय प्रति शेयर (रु. 1/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) 1. पूल 2. तरल	(0.19) (0.19)	(0.24) (0.24)	0.06 0.06	0.04 0.04

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 31 जुलाई, 2020

results of the Company."

Date: 31/07/2020

Place: New Delhi

1. उपरोक्त सेबी (सुचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंजों में दाखिल की गई तिमारी वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचैंन की वेबसाईट ( www.bseindia.com) पर उपलब्ध है।

2. उपरोक्त परिणामों की ऑडिट कमिटी हारा समीक्षा की गई तथा 31 जुलाई, 2020 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल हारा अनुमोदित किए गए हैं। कम्पनी के सांविधिक आढिटरों द्वारा यह ऑडिट की गई है तथा उन्होंने सीमित समीक्षा रिपोर्ट जारी किए हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से विकास ईकोटेक लिमिटेड के लिए

विकास गर्ग

प्रबंध निदेशक

DIN: 00255413

https://www.newtimeinfra.in तथ बीएसई की वेबसाईट http://www.bseindia.com पर भी देखी जा सकती है। न्यूटाइम इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट

तथा अनुमोदन किये जाएंगे।

आशीष पंडित तिथि: 30.7.2020 (निदेशक)

स्थानः नई दिल्ली DIN:00139001

www.readwhere.com

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 31 जुलाई, 2020

FINANCIAL EXPRESS

Date: 29.07.2020

19.01.2020

HAM

4,00 PM

Not

Known

ALRS 41 LAKE

BIRS 4 TELANIA

DIRS. E. W. LAWH



कार्यालय महाप्रबंधक (अभियंत्रण) उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ए-1/4, लखनपुर, कानपुर

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

एतदद्वारा सुचित किया जाता है, कि जनपद-कानपुर देहात में "Disposal of Chromium waste dumped near village Khanchandpur, Rania में अनुमानित रूठ 34.23 करोड धनराशि के कार्यों हेत इच्छक फर्म / निविदाकार, जिनके पास "Authorisation from Govt. to operate under Hazardous and other wastes (Management and Trans boundary movement) Rule-2016" प्राप्त हो, से ई-निविदायें आमंत्रित की जाती है।

SI. No.	Activity	Date/Time
1.	Period of Sale of Bidding Documents	From 30.07.2020 at 11:00 AM To: 17.08.2020 at 5:00 PM
2.	Time and Date of Pre-Bid Conference	06.08.2020 at 12:30 PM
3.	Last Date and Time for Receipt of Bids	17.08.2020 at 05:00 PM
4.	Time and Date of Opening of Technical Bid	18.08.2020 at 11:00 AM

SCHEDULE OF TENDER

एवं अन्य करों सहित होंगी। निविदा सम्बन्धी विस्तृत जानकारी निगम की website:www.upsidc.com पर स्थित ई-लिंक एवं यूपीएलसी की website: http://etender.up.nic.in पर देखी जा सकती है। वरिष्ठ प्रबन्धक (म्)

उ०प्र०रा०औ०वि०प्रा०, कानपुर

## MPS LIMITED

CIN: L22122TN1970PLC005795 Registered Office: RR Towers IV. 16/17. Super A. Thiru-vi-ka Industrial Estate Guindy, Chennai - 600 032, Tamil Nadu Corporate Office: C-35, Sector-62, Noida-201307. Tel; 0120-4599754 Email ID: investors@mpslimited.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to the Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, August 11, 2020 to inter alia consider and approve the Un - Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the quarter ended June 30, 2020 and the proposal for Buyback of equity shares of the Company. This Notice is also available on the website of the Company and Stock Exchanges where the

Sunit Malhotra

## G. K. CONSULTANTS LIMITED Regd. Office: 302, G. K. House,

187-A, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi-110 065 Tel:+91-11-26489431 Fax: +91-11-26489299 Web: www.gkconsultantsltd.com CIN: L74140DL1988PLC034109 NOTICE

In terms of provisions of Regulation

47(1)(a) in read with Regulation 29(1)(a) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Shorter Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, the 31<sup>51</sup> July, 2020 at 3.30 P.M. at the Registered Office of the Company to consider and to take on record the Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended on 31" March, 2020 pursuant to the Regulation 33 of LODR Regulations. By order of the Board

CS. Shilpa Verma Place: New Delhi Company Secretary Date: 28.07.2020 FCS: 10105

Chairman & Managing Director

(₹ in lacs)

G. K. CONSULTANTS LIMITED

punjab national bank पंजाब नैशनल बैंक

BO: Civil Lines, Rohtak-124001 mail: bo0838@pnb.co.in M-9053084420 BO: Jhajjar Road, Rohtak-124001 mail: bo0406@pnb.co.in M-905308424 (Circle office: Rohtak mail: cortksamd@pnb.co.in) M-8295430006

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guaranter (s) that the below described immovable property

mortgaged/charged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of the Bank/ Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on the date as mentioned in the table herein below, for recovery of its dues due to the Bank/ Secured Creditor from the respective borrower (s) and guarantor (s). The reserve price and the earnest money deposit will be as mentioned in the table below against the respective properties. SCHEDULE OF THE SECURED ASSETS

Name of the Branch Name of the Account Name & addresses of the BorroweriGuarantors Account	Immovable Properties Mortgaged! Owner's Name	A) Dt. Of Demand Nation u(a 13(2) of SARFESI ACT B) Outstanding Amount as on C) Possession Date u(a 13(4) of SARFESI ACT D) Nature of Possession	A) Reserve Price E) EWD C) Bid focuses Assured	Datei Time of E-Acction	Details of the encambrances known to the secured creditors
PlyushJain	no. 1186-P Extension Road.	o. 11212 dated 04.01.2017 Sub Registrar,	AIRS 205 LAKE BIRS 20 90 LAKE DIRS 0.25 LAKE	19:04:29:20 TAM 50 4:23 FM	Not Known

A)09/08/2019 B) 31764308.54

£129.10.2019. D) Physical Possession

Ogstlyriged by GBTS GROOM (2) PNB civil lines Robtak and Land and Building on plot 257-20- deposted process of the Land and Building on plot No. 11, Eastern-Southern Strokes (process) process (process) process

Www.pmfMUs Shree Paras Fastners. Guarentor Smt. Anju Jain

vide Sale deed no. 19292/1 dated 12.02.2008 registered with joint Sub Registrar Rohtak and bounded as under: East: 44'11'house of Poonam Jain, West: 44'2"Plot of Kavita Jain and Santosh, North: 15'0"Plot of Vidya Devi, South: 15'0'Gali 20'wide Owner Anju Jain w/o Jinender Kumar Jain BRIEF TERMS AND CONDITIONS

 The Sale shall be subject to the Terms and conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 and to the following further conditions., 2) The Secured Assets will not be sold below the reserve price. The Minimum (First) Bid would be reserve price plus one incremental bid amount.), 3) The properties are being sold on 'AS IS WHERE IS', "AS IS WHAT IS" AND " WHATEVER THERE IS" BASIS.,

Part measuring 73.5 Sq Yards comprised in Min Jumla Khasra No.

2439 situated at Mauja Rohtak, Ranjit Nagar, Janta Colony, Rohtak.

 The particulars of Secured Assets specified in the Schedule hereinabove have been stated to the best of the information of the Authorized Officer. but the Authorized Officer shall not be answerable for any error, misstelement or omission in this proclamation. 5) The sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the Website https://www.mstcecommerce.com on date & time

of Auction specified above. For detailed term and conditions of the sale, please refer 1]www.lbapi.in, 2) https://www.mstcecommerce.com,

3) https://eprocure.gov.in/epublish/app. 4) https://www.pnbindia.in

Date: 29.07.2020, Place: Rohtak, Authorized Officer, Punjab National Bank, Secured Creditor

STATUTORY SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) OF THE SARFAESI ACT, 2002

HIM TEKNOFORGE LIMITED (Formerly known as Gujarat Automotive Gears Limited)

CIN: L29130HP1971PLC000904 Registered Office: Vill Billanwali, Baddi - 173205, Distt: Solan (H.P)

Telephone No.:+91(1795)654026 Fax No.:+91(1795) 245467 E-mail: gujarat.gears@gmail.com, Website: www.gagl.net

EXTRACT FROM STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON 31.03.2020 (Rs. in Lacs) Except EPS

8. No	Particulars	Quarter ended on 31.03.2020 (Unaudited)	Quarter ended on 31.12.2019 (Unaudited)	Quarer ended on 31.03.2019 (Unaudited)	Year ended on 31.03.2020 (Audited)	Year ended on 31.03.2019 (Audited)
1.2	Total income from operations Not Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	5124.45 -12.46	5109.11 64.92	8090 00 155 51	22753.29 462.64	32795.00 1309.72
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary terms)	-12.46	64.92	155.91	462.64	2093.6
4		-10.83	57.73	273 80	324 63	1530.00
5	Total Comprehensive Income for the period Comprehensive Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	48.87	32.80	187 53	309.77	1733.90
(D) ~ (Q)	Paid up Equity Store Capital (face value of Rs.2)- per share ( Reserves excluding Revaluation Reserve (as per audited Balance Shoet as at 31st March) Earnings Per Share (of Rs. 2)- each) (for continuing and discontinued operations) -	157.32	157.32	157.32	157.32 14732.26	157.33 14517.33
	Best Disted	-0.14 -0.14	0.73 0.73	3.48 3.48	4.13 4.13	23.20 23.20

Notes: (1.) The above audited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on July 29, 2020 and have been subjected to limited review by the Statutory Auditors. These Financial Results for the quarterlyear ended March 31, 2020, are available on the Bombay Stock Exchange Website- www.baeindia.com, and on the Company's Website- www.gaglinst. (2) The company is engaged in a single business segment "Manufacturing of Auto Components". (3) The Company has adopted IndAS 116 On' Leases" with effect from April 1, 2019, applicable for contracts for Leases existing on April 1, 2019. The effect of adoption of ind AS 116 using the Right-of-Use (ROU) asset and the lease liability on the remaining lease period & payments discounting using the incremental borrowing rate and effect is given in the financial results. (4) The national lock down in March, 2020 and imposition of Curtew in some states due to outbreak of Covid-19. Pandamic, has changed the overall economic activity resulting in serious disruption of business operations. The Company has taken necessary steps from time to time to contain the impact of pademic following the statutory guidelines/advisories issued by the Central/State Governments. Owing to the uncertainty in the economic activities. post lifting the lockdown, the company has carried out due assessment of the possible impaction its business results and its overall according to be assessment from the possible impact on its business results and its overall according to the possible impact on its business results and its overall according to the possible impact on its business results and its overall according to the possible impact on its business results and its overall according to the possible impact on its business results and its overall according to the possible impact on its business results and its overall according to the possible impact on its business results and its overall according to the possible impact on its business results and its overall according to the possible impact on its business results and its overall according to the possible impact on its business results and its overall according to the possible impact on its business results and its overall according to the possible impact on its business results and its overall according to the possible impact on its possible imp exercised due care in valuation of its invertories, receivables or other assets keeping in mind the risk involved in their recoverable in the foreceasable future. Since the situation is evolving continuously, the impact in future may be different from the estimate made on the date of approval of these results. The management will continue montoring the material changes due to the said Pandemic and take necessary measures accordingly to address the situation. (5) Corresponding figures of the previous quarter/year have been regrouped and reclassified to make them comparable with the current period figures, wherever necessary. (6) The figures of last quarter are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the published year to date figures up to the third quarter of the financial year.

> On behalf of Board of Directors Him Teknoforge Limited (Formerly known as Gujarat Automotive Gears Limited).

PLACE: Baddi DATED: July 29th, 2020

Rajiv Aggarwal Jt. Managing Director (DIN No. 00094198)

# SHEMAROO ENTERTAINMENT LIMITED

(CIN:L67190MH2005PLC158288) Registered Office: Shemaroo House, Plot No. 18, Marol Co-Op. Industrial Estate, Off Andheri - Kurla Road, Andheri (E), Mumbai - 400 059 Tel: +91 -22 - 4031 9911; Fax: +91 - 22 - 28519970; E-mail: compliance.officer@shemaroo.com

Website: www.shemaroo.com/www.shemarooent.com

EXTRACT OF THE UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2020

(₹ in Lakhs)

_		C	Year ended		
Sr. No.	Particulars	30.06.2020	31.03.2020	30.06.2019	31.03.2020
40.		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total Income from operations	8,655	12,380	14,387	51,611
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(1,328)	(1,118)	2,555	4,788
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1,328)	(1,735)	2,555	4,172
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1,281)	(1,407)	1,638	3,044
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(1,297)	(1,321)	1,615	3,087
6	Equity Share Capital (Face Value ₹ 10 each)	2,718	2,718	2,718	2,718
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	w =	00 2 <b>=</b> 00		56,979
8	Earning Per Share of ₹ 10 each (before and after extraordinary items)				757°01/16x200000
	Basic:	(4.77)	(5.15)	5.94	11.09
	Diluted:	(4.77)	(5.15)	5.94	11.09

# Notes:

- a. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on July 29, 2020
- The above is an extract of the detailed format of the Consolidated and Standalone Financial Results for the quarter ended June 30, 2020 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results are available on the websites of the Company, National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at www.shemarooent.com, www.nseindia.com and www.bseindia.com, respectively.

New Delhi

c. Additional Information on Standalone Financial Results is as below:

**Particulars** 

Income from operations

Profit before tax

Profit after tax

Place: Mumbai

Date : July 30, 2020

31.03.2020 31.03.2020 30.06.2020 30.06.2019 (Unaudited) (Audited) (Audited) (Unaudited) 8,399 9.935 13,870 47,967 (1,332)(2,536)2,554 3,506 (1,286)(2,210)1,637 2,379 By Order of the Board

Quarter ended

For Shemaroo Entertainment Limited

Hiren U Gada CEO & CFO (DIN: 01108194)

(₹ in Lakhs) Year ended

Website: www.mpslimited.com

equity shares of the Company are listed viz., www.mpslimited.com. www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively. For MPS Limited

CFO & Company Secretary

Registered Office: No.6, Sultanpur, Mandi Road, Mehrauli, New Delhi-110030
Website:www.tinnatrade.in, E-mail:investor.ttl@tinna.in, Telephone No.:011-49518530 Fax no.011 200081 CIN:L51100DL2009PLC186397 EXTRACT OF THE AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDFD 31ST MARCH, 2020

TINNA TRADE LIMITEDGUPTA

							S. III KHATEP		
			STAND	CUNSOLIDATED					
S.	PARTICULARS	Quarter	Ended	Year Ended		Year Ended			
No.		31-Mar-20	31-Mar-19	31-Mar-20	31-Mar-19	31-Mar-20	31-Mar-19		
		Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited		
1	Total Income from Operations	4,356.25	10,771.87	29,101.55	47,789.53	30,309.29	48,759.36		
2	Net profit/(loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(261.88)	(68.73)	(466.03)	205.98	(353.36)	225.49		
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	(261.88)	(68.73)	(466.03)	205.98	(353.36)	225.49		
4	Net profit/(loss) for the period after Tax (After Exceptional and / or Extra ordinary Items)	(194.66)	(41.64)	(369.76)	163.93	(257.09)	183.42		
5	Total Comprehensive Income for the period (comprising profit / (loss) for the period (after tax) and other comprehensive Income (after Tax)	(194.09)	(37.59)	(374.11)	171.98	(263.35)	192.18		
6	Equity Share Capital (Face value of Rs. 10 each)	856.48	856.48	856.48	856.48	856.48	856.48		
7	Other Equity		-	2,106.04	2,480.15	1,951.65	2,268.68		
8	Earning Per Share(face value of Rs 10/- each share) (for continuing and discontinued operation)								
	(a) Basic	(2.28)	(0.49)	(4.32)	1.91	(3.64)	2.03		
	(b) Diluted	(2.28)	(0.49)	(4.32)	1.91	(3.64)	2.03		

Note:-

- 1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly/ Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange websites ie www.bseindia.com and on the company's website www.tinnatrade.in
- 2 The above standalone results were reviewed by the Audit Committee on 29th June, 2020 and approved by the Board of Directors at its meeting held on 29th June, 2020 and the

consolidated results have been reviewed by the Audit Committee on 29th July, 2020 and approved by the Board of Directors at its meeting held on 29th July, 2020.

FOR TINNA TRADE LIMITED Sd/-Place: New Delhi Gaurav Sekhri

Date: 29th July, 2020

## HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD. Nothern Regn. Office: The Capital Court, Munirka, Outer Ring Road, Olof Palme Marge, New Delhi - 67

Tel.: 011-41115111, CIN L70100MH1977PLC019916, Website: www.hdfc.com POSSESSION NOTICE Whereas the Authorised Officer/s of Housing Development Finance Corporation Limited, under Securitisation And Reconstruction of

Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notices under Section 13 (2) of the said Act, calling upon the following borrower(s) / Legal Heir(s) and Legal Representative(s) to pay the amounts mentioned against their respective names together with interest thereon at the applicable rates as mentioned in the said notices, within 60 days from the date of the said Notice/s, incidental expenses, costs, charges etc till the date of payment and / or realisation.

Sr. No.	Name of Borrower(s) / Legal Heir(s) and Legal Representative(s)/ Loan Account Nos.	Outstanding Dues	Date of Demand Notice	Physical Possession	Property(ies)/Secured Asset(s)
1.	MR VIKRAM SINGH & MS ANUPAMA SINGH LOAN ACCOUNT NO. 628264670	Rs. 53,20,633/- (Rupees Fifty Three Lakh Twenty Thousand Six Hundred and Thirty Three Only) due as on 30-NOV-19*			FLAT No. GGN-25-0901, 9th FLOOR, TOWER/BUILDING No. 25, EMAAR MGF GURGAON GREENS, VILLAGE DHANKOT, SECTOR 102, VILLAGE DHANKOT, DWARKA EXPRESSWAY, GURGAON, HARYANA WITH UNDIVIDED PROPORTIONATE SHARE OF LAND UNDERNEATH

However, since the borrower mentioned hereinabove has failed to repay the amounts due, notice is hereby given to the borrowers / Legal Heir(s) and Legal Representative(s) mentioned hereinabove in particular and to the public in general that the Authorised Officer of HDFC has taken Physical Possession of the immovable property / secured asset described herein above in exercise of powers conferred on him under Section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on the dates mentioned above.

The borrower(s) / Legal Heir(s) and Legal Representative(s) mentioned hereinabove in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the aforesaid Immovable Property / Secured Asset and any dealings with the said Immovable Property (ies) / Secured Asset(s) will be subject to the mortgage of Housing Development Finance Corporation Ltd. Borrower(s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) attention is/are invited to the provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in

respect of time available to redeem the secured asset/s. Copies of the Panchnama drawn and inventory made are available with the undersigned, and the said Borrower(s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) is / are requested to collect the respective copy from the undersigned on any working day during normal office hours.

For Housing Development Finance Corporation Ltd. Place: Delhi Sd/-Date: 29-JULY-2020 Regd Office: Ramon House, H.T. Parekh Marg, 169, Backbay Reclamation, Churchgate Mumbai-400 020 Authorised Officer

CEAT LIMITED Regd. Office: 463, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 030

CIN: L25100MH1958PLC011041 (T): +91 22 2493 0621; (F): +91 22 2493 8933 Website: www.ceat.com; E-mail: investors@ceat.com

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2020

Sr.		Quarter	Year ended		
No.	Particulars	June 30, 2020	June 30, 2019	March 31, 2020	
		Unaudited	Unaudited	Audited	
1	Total Income from Operations	112,016	175,210	677,883	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional items)	(1,901)	8,502	33,413	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	(4,080)	8,442	30,429	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax and non-controlling interest (after Exceptional Items)	(3,476)	8,260	23,125	
5	Total Comprehensive Income / (Loss) for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax), Other Comprehensive Income / (Loss) (after tax) and after non-controlling interest]	(3,225)	8,673	25,658	
6	Equity Share Capital	4,045	4,045	4,045	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	<b>55</b>		286,747	
8	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations) (not annualised except for year ended March)				
	Basic (in ₹) :	(8.59)	20.42	57.17	
	Diluted (in ₹):	(8.59)	20.42	57.17	

# Notes:

Place : Mumbai

- 1) The above results of the Company were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors at their meetings held on July 29, 2020.
- The consolidated financial results of the Company, its subsidiaries ("the Group"), joint ventures and associate have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ("Ind AS") as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, (as amended).

2) Key Unaudited Standalone Einancial Information :

Key Unaudited Standalone Financial Information	ation :-		(₹ in lacs)				
	Quarte	Quarter ended					
Particulars	June 30, 2020	June 30, 2019	March 31, 2020				
	Unaudited	Unaudited	Audited				
Total income from operations	106,654	170,360	658,111				
Profit / (Loss) before tax	(2,069)	8,587	33,853				
Profit / (Loss) after tax	(1,460)	8,699	27,076				

4) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange websites: www.bseindia.com. www.nseindia.com and on the Company's website: www.ceat.com.

Anant Vardhan Goenka

By order of the Board

For CEAT Limited

Date : July 29, 2020 ₩RPG: financialexp.



Managing Director

G. K. CONSULTANTS LIMITED

Regd. Office: 302, G. K. House,

187-A, Sant Nagar, East of Kailash,

New Delhi-110 065

Tel: +91-11-26489431 Fax: +91-11-26489299

Web: www.gkconsultantsltd.com

CIN: L74140DL1988PLC034109

In terms of provisions of Regulation

47(1)(a) in read with Regulation 29(1)(a)

of the Securities and Exchange Board

of India (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Shorter Notice is hereby given

NOTICE IS HEREBY GIVEN AND ID pursuance of sub-section (2) of section

366 of the Companies Act, 2013, an

application has been made to the

Registrar of Companies at Ministry Of

Corporate Affairs, C/6-7, 1st Floor,

Residency Area, Civil Lines, Jaipur-

302001 that TARUCHAYA

COLONIZERS LLP a LLP may be

registered under Part I of Chapter XXI of

the Companies Act 2013, as a company

2. The principal objects of the company

a) To carry on the business of Land

Development and building constructions

A copy of the draft memorandum and

articles of association of the proposed

company may be inspected at the

registered office at D-701, DIAMAND

TOWER, PLOT NO 4 & 5 SOMDATTS

ANDMARK, HAWA SADAK, CIVIL

Notice is hereby given that any person

objecting to this application may

communicate their objection in writing to

he Registrar of Companies at Ministry Of

Corporate Affairs, C/6-7, 1st Floor,

Residency Area, Civil Lines, Jaipur-

302001, within twenty one days from the

date of publication of this notice, with a

copy to the company at its registered

3. PANKAJ GOVERDHAN KHANDELWAL

Name(s) of Applicant

PAWAN KUMAR BIYANI

तिथि : 28.07.2020

स्थान : नई दिल्ली

. VINAY TAMBI

Date: 27/07/2020

LINES JAIPUR RAJASTHAN 302006

imited by shares.

are as follows:

ऑडियो टेप मामले में प्राथमिकी रद्द करने की मांग

जयपुर, 29 जुलाई (भाषा)।

कांग्रेस के बागी विधायक भंवरलाल शर्मा ने मंगलवार को राजस्थान उच्च न्यायालय का रुख कर ऑडियो टेप मामले में उनके खिलाफ एसओजी द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया।

राजस्थान में राजनीतिक खींचतान के बीच आए कई ऑडियो टेप में से एक में शर्मा कथित रूप से एक केंद्रीय मंत्री के साथ राज्य की अशोक गहलोत सरकार को गिराने के लिए विधायकों की खरीद-फरोख्त करने पर बात कर रहे हैं।

उप मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त कर दिए गए सचिन पायलट के खेमे में शामिल विधायक ने अदालत से अनरोध किया है कि वह इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) को सौंप दे। फिलहाल मामले की जांच राजस्थान पुलिस का विशेष अभियान दल (एसओजी) कर रहा है।

एसओजी ने 17 जुलाई को शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। तीन ऑडियो टेप सामने आने

के बाद कांग्रेस के प्रमुख विप महेश जोशी की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ था। इनमें से एक टेप में शर्मा केंद्रीय मंत्री गर्जेंद्र सिंह शेखावत से कथित तौर पर विधायकों के खरीद-फरोख्त के जरिए सरकार गिराने की बातें कर रहे हैं।

वहीं एक अन्य टेप में वह इसी मुद्दे पर संजय जैन से कथित तौर पर बात कर रहे हैं। शर्मा ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बतलाते हुए अदालत से इस प्राथमिकी को रद्द करने की अपील की।

इसके अलावा उन्होंने इस मामले की जांच एनआइए को सौंपे जाने का आग्रह किया है। उनका तर्क है कि इस मामले में राज्य की जांच एजंसियां निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं करेगी क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री सार्वजनिक तौर पर उनके खिलाफ बयान दे चुके हैं। एसओजी जैन को गिरफ्तार कर चुकी है और शेखावत को नोटिस भेज चुकी है। कांग्रेस ने दावा किया है कि जैन भाजपा नेता हैं जबकि भाजपा ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि संबंधित व्यक्ति के साथ पार्टी का कोई संबंध नहीं है।

# भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मिली फोन पर धमकी

भोपाल, २९ जुलाई (भाषा)।

भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अज्ञात फोन से उन्हें कथित रूप से कई बार कॉल करके धमकी देने के मामले में यहां कमला नगर पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है।

कमला नगर पुलिस थाना प्रभारी विजय सिसौदिया ने बुधवार को बताया, 'सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकर को फोन पर धमकी देने एवं अभद्र भाषा का प्रयोग करने के मामले में मंगलवार रात को हमारे थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सांसद प्रज्ञा की अर्जी पर यह मामला दर्ज हुआ है।' उन्होंने बताया कि सांसद को ये फोन मंगलवार रात साढे छह बजे के आसपास अज्ञात नंबर से आए थे। सिसौदिया ने बताया कि फोन करके अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया गया। साइबर सेल से जानकारी प्राप्त करनी है कि ये फोन कहां से आए हैं। साइबर सेल से जो भी जानकारी प्राप्त करवाई है।

होगी, उस पर आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या जान से मारने की धमकी दी गई थी, तो उन्होंने कहा कि यह जांच का हिस्सा है।

इस बीच, प्रज्ञा ने मीडिया को बताया कि मंगलवार को भी कई फोन आए थे। कभी प्राइवेट नंबर कॉल दिखा रहा था, कभी इंटरनेशनल नंबर कॉल दिखा रहा था। अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि कॉल करने वाले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मेरे खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया।

प्रज्ञा ने बताया कि इसके अलावा कॉल करने वाले ने अयोध्या के राम मंदिर निर्माण को लेकर एवं हनुमान चालीसा के पाठ करने को लेकर जो मैंने आह्वान किया था, को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इस संबंध में मैंने कमलानगर थाना भोपाल में प्राथमिकी दर्ज

# रूपा एंड कंपनी लिमिटेड ने सीकर में की अपने पांचवें शोरूम की शुरुआत

कोलकाता, २९ जुलाई (जनसत्ता)।

रूपा एंड कंपनी लिमिटेड ने भारत में अपने पांचवे शोरूम की सीकर, राजस्थान में शुरुआत की। रूपा कर्म्फट स्टोर नाम के इस शोरूम में बच्चों, महिलाओं और पुरूषों की कपड़ों से जुड़ी जरूरतों का खास ध्यान रखा गया है। यहां पुरुषों के लिए कंपनी के रूपा फ्रंटलाइन, जोन, युरो, बमचम्स, फुटलाईन ब्रांड के उत्पाद मौजुद हैं। वहीं महिलाओं के लिए सोफ्टलाइन ब्रांड के परिधान उपलब्ध हैं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कंपनी ने मास्क भी तैयार किया है जो इस शोरूम में उपलब्ध है।

उद्घाटन के मौके पर रूपा एंड कंपनी लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक कुंज बिहारी अग्रवाल ने बताया कि यहां उचित कीमत पर बेहतर उत्पादों की पेशकश की गई है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य देश में जन समुदाय की एक बड़ी आबादी को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी निर्माण के विचार को बढ़ावा देना है।

# अंडमान-निकोबार में सप्ताहांत में पूर्णबंदी

पोर्ट ब्लेयर, २९ जुलाई (भाषा)।

एक अधिकारी

ने मंगलवार

जानकारी दी।

केंद्र

के मुख्य

शासित प्रदेश

सचिव चेतन

बी सांघी ने

मंगलवार को

आदेश में

कहा है कि

जब तक केंद्र

शासित क्षेत्र में

कोविड-19

की स्थिति में

सुधार नहीं

होता है तब

तक शनिवार

और रविवार

प्रतिबंध लागू

आदेश में

कहा गया है

कि सभी

कारोबारी

प्रतिष्ठान,

दुकानों के

साथ-साथ

यातायात

प्रतिबंधित

हालांकि इससे

सेवाओं वाले

वस्तुओं वाली

दुकानों को

छूट दी गई

सेवाओं में

लगे वाहनों

को भी छूट

एक हेल्थ

बीच

बुलेटिन के

अनुसार इसी

प्रदान की गई

है। आवश्यक

लोगों और

अनिवार्य

रहेगा।

अनिवार्य

को कड़े

रहेंगे।

जारी किए गए

को यह

कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अंडमान-निकोबार प्रशासन ने एक अगस्त से सप्ताहांत में पूर्ण लॉकडाउन करने का निर्णय किया है।

अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में वायरस से 25 लोग और संक्रमित पाए गए हैं जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 363 हो गई। कुल 363 मामलों में से 170 लोगों का इलाज चल रहा है और 192 लोग बीमारी से स्वस्थ हो चुके हैं और

संतोष ओवरसीज लिपिटेड (परिसपापन में) परिसमापक : श्री रोहित सहगल

पंजीकृत कार्यालय : युनिट तं. डीपीटी 501, डीएलएफ प्राइम टावर्स, ओखला फेज, तई दिल्ली, दिल्ली-110020 ईपेल आईडी : assetsale2@aaainsolvency.in, rohit.sehgal@aaainsolvency.com सप्पर्क ते. : - ११ ३७००७४,५२३४ (श्री पुनीत संबरेव/श्री वसीप)

दिवाला एवं दिवालिया सीरता, 2016 के अन्तर्गत परिसम्पनियों की ई-नीलापी किकी

ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 3 अगस्त, 2020 को 3.00 बजे अग से 5.00 बजे अग तक (प्रति 5 पिनट के असीपित विसारों के साथ) सनोप ओवरसीन लिपिरेड (परिसपापन पें) जो आदेश तिथि 27 सिनप्बर, 2019 के पाध्यप से पाननीय राष्ट्रीय कपनी विधि अधिकरण प्रधान पीठ. नई दिल्ली द्वारा नियुक्त परिसपापक के परिसपापन सम्पदा का भाग है. के स्वापित्व की परिसप्पनियों की बिक्की। यह बिक्की परिसपापक द्वारा

ई - नीलामी प्लेटफार्म https://aaa.auctiontiger.net के द्वारा की जायेगी। आरक्षित पूल्य वृद्धि पुल्य (五 中) (रु. मैं) (रु. पै) भूमि तथा भवन ग्राम राजरामपुर, परमना एवं क्हागील गिकन्दरबाद, विला 21.10 2.10 करोड ऽ ताख बुतन्दश्रहर, उ.प. में रिश्त (भूमि क्षेत्रफल 19.06 एकड़ मूपीएएआईडीएी द्वर तीननेत्ड भूपि 1.26 एकड् सहिर)

ई-नीलामी के नियम एवं शर्ती इस प्रकार है: 1. ई. मीलापी (बीकृत ऐवा प्रदास पै. ई. प्रक्रिमोपेंट देवमेलॉबीज लिपिटेड (Auction Tiger) के द्वारा ''बिएा है जहा है'' क्था ''जो भी वहा है'

2. परिष्पत्रिमों के बिटारणों, ऑन-लाइन ई-मीलापी बोली एपन, उद्गोषणा, पतिज्ञापन, ऑफ्लाइन मीलापी बिक्ती के ग्रामान्य निमयों एवं ऋतौं ग्रे ऋषिल सम्पूर्ण ई. नीलामी प्रक्रिया दालावेक वेबगाईट: https://axx.auctiontiger.net पर उपलब्ध है। सम्पर्क करें: श्री नीरव विवेदी, 191 63S1S96S34/079-61200SS4 関 63S1S96S34、ne ha gyani@auctiontiger.net, rampræsæd@auctiontiger.net/support@auctiontiger.net. (तिक https://assa.auctiontiger.net.पर जाकर बोलीवात को अधीलिखित वे धिकरूपे में हे किही एक है) कम्पनी का नाम ( एजेब ओवरप्रीज लिपिटेड), अथवा ii) (राज्य एवं एप्पति का एकार का उपमेग कर वर्षित कप्पनी को एर्च करना होगा।

3. अपनी बोली जया करने से पूर्व इंड्स्क बोलीटामओं को अपने स्वम के छर्चे पर सप्पति के टाइटल, मदि कोई हो, स्थानीम करों के बकामों, बिजली एव पानी के शुरुकों, रखरखाय शुरुकों, आदि परिएम्मितमें हे हाराधिक अपना हातज जॉव कर हायम को एक्स्ट कर लेगा वाहिसे। एशवित बोलीवाता श्री पुरीत एक्टेब/ श्री बरीमः 191-8800868284 हे एम्पर्क कर पूर्व अपूर्णने के साथ गाईट पर उपरोक्त ग्रम्पतिमों का मिरीक्षण कर एकते हैं। इन्द्रक बोलीवाताओं को ''एकोय ओवरपीज लिपिटेड-परिएमपय पे'', खाम ४, ५०,२०००४५२४५९६७, एनडीएफपी बैंक, शाखाः बी-५४ए, प्रेट कैलाञ्च. मई दिल्ली - 11004S, आईएमएएएरी कोड : HDFC0000092 के पश्च में देम किएंगे अमूर्णूचित बैंक के डीडी/ एमईएमठी/ आरटीजीएएर ब्रार अथवा '' एतीक ओवरारीज लिपिटेड-परिसमापन में '' के पश्च में डीडी द्वारा देम मा ग्रम्पूर्ण ई. नीलामी प्रक्रिमा दरजवेज में प्रदत्त प्रारूप ए मा प्रारूप बी के अपूर्णर बैंक गरटी ब्रह ईएमडी हेर्नु हिंह जमा करने होगी।

S. इंक्ट्रुक एटिटाकार को ई-मीलामी में भागीदारी के लिये उएके एाथ 1) पहचान के प्रमाण, 2) वर्तमार पता- प्रमाण, 3) मैर कार्ड, 4) वैध ई-मेल आईडी, S) तैडलाइन एवं मोबाईल फोम नम्बर, G) परिष्ठिन्द 1 के अनुसार प्रपथ-पत्र अथवा वालन, 7) परिष्ठिन्द II के अनुसार बोली आवेडन प्रपत्र, S) परिष्ठित्य III के अनुसार बोलीदाता द्वार उदुनोयमा. इन परिष्ठित्यों का सम्पूर्ण शरूप ई-मीलामी प्रक्रिया दालादोन से लिया जा सकत है. एवक: एज्यापिक प्रति के साथ ईएमडी जमा अथवा बैंक गारटी एवं निवेदन पत्र जमा करम होगा। में एभी दस्तावेज 31 जुलाई, 2020 के 5.00 जलें। राम से पूर्व रीचे दिमे गमे पने पर डाक मा ई-पेल ≩ाउ परिसमापक के कार्यालम में पहुंच जारा चाहिसे । इक्टूक बोलीटाज को 31 जुलाई, 2020 को ॄ S.00 अने अप. से पूर्व https://acc.auctiontiger.net पर बोली-पूर्व प्रतिभृति नया करने के विवरणों के साथ अपना केवाईसी दासवेन अपलोड

6. पोर्टल (hllps://www.auctiontiger.net.पर ई. गीलापी पे भाग लेने के लिये योष्य बोलीदास के नाम की पहचार परिरामापक द्वार की जमेंगी। ्ई. बीलापी होया प्रकृता (Auction tiger) मोग्म बोलीटामओं को ई.पेल द्वारा मुनर आईडी तथा पारवर्ड उपलब्ध कहरूपे ।

7. मदि बोली ई. बीलापी की एमापब एपम के अनिय S पिबट में प्राकृत की जाती है तो एमापब एपम अग्रीपिक बिरतारों के एए एवत: आगे पाच पिनट बढ़ आयेगा। ई-नीलापी प्रक्रिया की एमान्ति पर उन्नतथ बोली राप्ति (आरिष्ठत मूल्य ऐ कप करी) प्राकृत करने वाले बोलीदाम की एफल बोलीदाला पोषिक किया जामेगा तथा इलेक्ट्रॉरिक माध्यमों हो उन्हें इस आज्ञम की सुचरा ही जामेगी के परिसमापक द्वार स्वीकृति के अधीय होगा। S. एफल एविज्ञकार की ईएमडी आफ्रिक विक्री जम के रूप में रख ती जामेगी और आएफल एविज्ञकारों की ईएमडी वापए कर दी जामेगी। ईएमडी पर कोई ब्यान देय नहीं लेगा।परिएपपक एफल बोलीदाज के लिए आहम पत्र (एलओआई) जरी करेंगे और एफल एविद्यकार को परिएमपक ब्रार एल ओ आई के निर्णयन के 20 दिनों के भीकर शेष ठिश (एफल एविट ठिश ईएमडी राशि) जमा करनी लेगी। एफल एविटकार ब्रेड एल ओ आई थें| उस्लिखित समय ग्रीमा के भीतर त्रेष त्रति जमा करने में चुक करने पर सफल बोलीदाता द्वार जमा की गई ग्रमुम त्रति (ईएमडी कोई अन्य त्रति) बब्त कर ती बाएगी।

9. एकत बोतीवता को लागू होने वाले स्टाप्य मुल्को/ अतरण वार्ज, मुल्क आदि क्था अन्य एश्री एश्रामीय करें, मुल्को, रैट्स, रणमा वार्जेज, मीलामी की एपित से एवधित मुत्कों आदि का उद्गम करना होगा।

10. परिरामापक की उसका कोई भी कारण बताए बिया किसी मा सभी परतायों की स्वीकार मा मिराज करने अथवा ई-मीलामी को स्थमित/ रह/ मिलमित करने तथा राम्पति अथवा उसके किसी भी भाग को ई. नीलामी हो वापस लेने का अधिकार है।

11. समूर्ण बिक्की राष्ट्रि के भूगमन पर केवल सफल बोलीटाम के नाम में ही बिक्की प्रमाणपड/ अपूबध नाष्ट्री की नाएगी तथा अन्य किसी नाम में करी। 12, यह बिक्री दिवाला तथा दिवालिया एहिला, 2016 क्था उएके अकर्गत निर्मित विनियमनों के प्रावधानों के अधीन होगी।

13. मदि एक से अधिक बोलीदाला ईएपडी जमा उन्हें करते हैं. में परिसम्पक को स्टेकशारकों से परामर्श कर मैलामी प्रक्रिमा को रह करने का एम्प्रभू 14. कप्पनी के रमराराम क्या प्रवातनों का डस् डिलिकेनर करने के लिए इन्हुक बोलीव्रताओं को परिरमापक के माध्यम से कार्मरत कप्पनी ब्रास

एशपिक एवं प्रविधत हैं.ज रूप (''हैंटा रूप'') में प्रवेश दी काएगी। इन्ह्यूक बोलीदाकओं को ई-गीलामी की विधि तक हैं.ज रूप में बागकारी की एवर्रे ए 🗗 जाएगी। इच्हुक बोलीटाम द्वारा हैटा रूप में एवर्रेस तथ जानकारी का उपमोग समय रामम पर परिसमापक द्वारा निर्धारित की जाने वाली निममों के अनुसार की जा सकेगी।

15. ई. नीलापी तिष्ठि एव एमम: 3 आगरन, 2020, 3.00 जने आप. ऐ 5.00 जने प्राम (5 पिनट के आसीपिन विस्तारों के साथ)

रोहित संस्पाल परिसमापव संतोष ओवरसीज लिम्प्टेड (परिसमापन में) IBBI 中部 在:IBBI/IPA-001/IP-P00528/2017-2018/10953 पताः ए-४०४, सज्जन दिस्तर, सेक्टर-४३, गुडगौँदा, हरियाणा-१२२००२ इंमेल आईटी: iamral@l@gmail.com

सम्पर्क ने: ०११ ४७७७ ४७००; -२१ ४९००९७४३४४ (थी पुनीत सचदेव√ थी वसीम)

कोरोना से संक्रमित सूडानी मुंबई, 29 जुलाई (भाषा)। नागरिक लापता

मुंबई में कोरोना विषाणु से संक्रमण का

लापता हो गया है। इस संबंध में मामला दर्ज एक होटल में रह रहा था।

आंकड़ा बढ़ रहा है। इसी बीच कोरोना से किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने संक्रमित सुडान का 40 वर्षीय एक नागरिक बताया कि सुडान का यह नागरिक मुंबई के

**RBL BANK LIMITED** 

RBLBANK Ltd. Regional Office: Hansalaya Building, Upper Ground Floor, 15, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001

Registered Office: 1st Lane, Shahupuri, Kolhapur-416001

E-AUCTION SALE NOTICE (UNDER SARFAESI ACT, 2002) E-AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE ASSET CHARGED TO THE BANK UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 ("SARFAESI ACT") READ WITH RULE 8(6) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 ("RULES")

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower, Co-Borrower Guarantor (s) and Mortgagor (s) that the below described immovable properties mortgaged/charged (collectively referred as "Property") to RBL Bank Ltd. ("Secured Creditor/Bank"), the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of the Bank under section 13(4) & section 14 of the SARFAESI Act read with the Rules, as detailed hereunder, will be sold on "As is where is", "As is what is", "Whatever there is" and "Without Recourse Basis" on 04.09.2020, for recovery of the Bank's outstanding dues plus interest as detailed hereunder under Rules 8 and 9 of the Rules by inviting bids as per below e-auction schedule: Brief Description of Parties, Outstanding dues and Property

Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Shorter Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, the 31 <sup>57</sup> July, 2020 at 3.30 P.M. at the Registered Office of the	S N o		Details of Property(ies) & Mortgagor	Demand Notice Date of Demand & Possession Notice under SARFAESI Act	Inspection Date and Time	EMD Bid Increase Amount	Date/ Time of e-Auction	Last Date for Receipt of Bids along with documents	Authorised Officer/ Phone No./ Email Id
Company to consider and to take on record the Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended on 31" March, 2020 pursuant to the Regulation 33 of LODR Regulations.  By order of the Board  G. K. CONSULTANTS LIMITED  Sd/-  CS. Shilpa Verma  Place: New Delhi Company Secretary Date: 28.07.2020 FCS: 10105	1	3.Shri. Mandhir Singh Todd (Guarantor / Co- Borrower/Director)	All that part and parcel of DPH-01, 12th Floor, having Super Area of 6083 square feet along with two covered reserved car parking slots bearing No.292 and 293 in Building/Tower-D, situated in Group Housing Colony known as Central Park-I, in the revenue estate of Village Chakkarpur & Walirabad, Diett Courses	facility: Rs. 4,77,32,982/- (Rupees Four Crore Seventy Seven Lac Thirty Two Thousand Nine Hundred Eighty Two Only) payable as on 31.03.2019 against Demand notice dated 23.04.2019	between 1:00 p.m. to 4:00 p.m	Reserve price: 6,65,00,000.00 (Rupees Six Crore Sixty Five Lacs Only)  EMD: 66,50,000.00 (Rupees Sixty Six Lacs Fifty thousand Only)	11:00 a.m	02.09.2020	Deepak Gupta, 8920244394/ deepak.gupta36 rblbank.com
PUBLIC NCT LCE by CAPILA  FERM UEU: 25.470-dcdar? / 36.0076  ADVERTISEMENT GIVING ) PREPAREMENT OF ITE COMPANIES ACT, 20	0 2/0 0 2/0 0 2/0 0 2/0 0 2/0 0 0/0	City-I,Gurugram -122001 4. M/s Zenica Lifestyle Pvt. Ltd. (Borrower / Co- Borrower) 2nd Floor, Orchid Centre, Sector 53, Golf Course Road, Gurugram -122001	Distt. Gurugram, Main Sector Road Sector-42 Near DLF	(Rupees Seven Crore Forty Three Lacs Six Thousand Five and paise Sixty Eight Only) payable as on 31.03.2019 against Demand notice dated 02.04.2019.		Bid Increase amount: 5,00,000.00 (Rupees Five Lakh Only)			

Note: 1. Interested bidders may note that to the best of knowledge and information of the Authorized Officer, there are following encumbrances on the Property: a. Unpaid Electricity dues & Unpaid Maintenance charges of Society of Rs. 4, 14, 901/- i.e. (Electricity charges till 29.06.2020: Rs. 1, 46, 128/- and Society Maintenance Charges

Notice-29.06.2020

till 29.06.2020:- Rs.2,68,773/- plus additional monthly Society Maintenance charges and elecricity charges as applicable b.Municipal Corporation Property Tax aggregating to Rs.10,401/- till 31.07.2020

Following cases are subjudice before Hon'ble Delhi High Court("DHC"), however the Bank has been permitted to proceed under the SARFAESI Act & to sell the Property: a. The Property has been attached by Enforcement Directorate ("ED") u/s 5(1) of Prevention of Money Laundering Act, 2002 ("PMLA")vide Provisional Attachment Order No. 12/2019 dated 02.09.2019 in ECIR No. ECIR/05/DLZO-II/2018) ("PA Order"). The ED has thereafter filed a complaint u/s 5(5) of PMLA having O.C No. no. 1201/2019 before the Adjudicating Authority for confirmation of the PA Order. RBL Bank filed a writ petition (W.P.(C)10048/2019) before Hon'ble DHC for quashing the PA Order which is pending adjudication, however the Hon'ble DHC has vide its order dated 13.01.2020 stayed further proceedings before Adjudicating Authority qua RBL Bank and the Property. Further, the ED has given no objection to sell the Property under SARFAESI Act, which has been recorded in the order dated 16.10.2019. Furthermore, the Hon'ble DHC vide its order dated

06.12.2019 permitted the Bank to sell the Property and directed to inform the court before finalising the sale. b. ICICI Bank has also filed a suit CS(comm) 306/2019 before High Court for restraining RBL Bank from realizing and dealing with securities in which ICICI Bank is claiming par passu charge. Pending disposal of the case, the High Court has allowed vide its order dated 12.07.2019, that RBL Bank may go ahead with the proceedings under Sections 13(4)

and 14 of the SARFAESI Act. However, the intending bidders should make their own independent inquiries regarding the encumbrances, title of Property put on auction and claims/rights/dues/effecting the

Property, prior to submitting their bid. Terms and Conditions:

(1) The E-Auction Sale will be online through e-auction portal. The interested bidders are advised to go through the detailed terms and conditions of auction available on the website of https://www.bankeauctions.com & https://www.rblbank.com/pdf-pages/news before submitting their bids and taking part in e-auction. It shall be the responsibility of the bidders to inspect and satisfy themselves about the Property and specification before submitting the bid.

The interested bidders shall submit their EMD details and documents through Web Portal: https://www.bankeauctions.com (the user ID & Password can be obtained free of cost by registering name with https://www.bankeauctions.com) through Login ID & Password. The EMD shall be payable through NEFT/ RTGS in the following Account of RBL BANK Ltd:- Auction Proceeds Collection GL, Account No 2599109900130047 (IFSC Code RATN0000990), before 5:00 PM on or before 02:09:2020

Interested bidders may avail support/ online training on E-Auction from M/s. C1 India Pvt Ltd Contact No: 124-4302020/21/22/23, 7291981124/25/26. Contact Person Mr. Vinod Chauhan Mob No: 9813887931, e-mail-ld: delhi@c1india.com and for any query in relation to Property, they may contact Mr. Deepak Gupta, Authorised Officer (Mob No. 8920244394 email: Deepak.Gupta3@rblbank.com)

The Authorised Officer of the Bank reserves the right to accept or reject any all bids & / or to postpone/cancel the auction at any time without assigning any reason whatsoever and his decision in this regard shall be final and binding. The confirmation of the sale is subject to the approval of Hon'ble Delhi High Court.

STATUTORY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER THE SARFAESI ACT The Borrower, Co-Borrower, Guarantor(s) and Mortgagor(s) are hereby notified to pay the aforementioned sum along with further interest thereon plus penal and other

interest and amounts as per the Transaction Documents, till payment thereof before the date of E-Auction, failing which the Property will be auctioned/ sold to recover the outstanding dues. Date: 30.07.2020 Place: Gurugram Authorised officer, RBL Bank Ltd.

## जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड

CIN:L74899DL1995PLC064007 पंजी. कार्यालय : 125, प्रथम तल, शिवा मार्केट, पीतमपुरा, उत्तरी दिल्ली

ई.मेल : grmrice1@gmail.com | वेबसाईट : www.grmrice.com | फोन नं. - 011-47330330 | फैक्स : 011-0180-2653673

31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए समेकित तथा स्टैण्डएलॉन वित्तीय परिणामों का सार [सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 47 (1) (ख) के अनुसार ]

स्टैण्डएलॉन समेकित समाप्त तिमाही समाप्त तिमाही समाप्त वार्षिक समाप्त वार्षिक समाप्त तिमाही समाप्त तिमाही समाप्त वार्षिक समाप्त वार्षिक क्रम विवरण मार्च 31. मार्च 31, मार्च 31, मार्च 31, मार्च 31. मार्च 31, मार्च 31. मार्च 31, सं 2019 2019 (अंकेक्षित) (अनंकेक्षित) (अंकेक्षित) (अंकेक्षित) (अंकेक्षित) (अनंकेक्षित) (अंकेक्षित) (अंकेक्षित) 107,063.06 20,173.17 47.042.95 76,651.82 20,721.32 47,921.99 77,715.26 110,905.03 परिचालनों से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, वशिष्ट एवं /अधवा 2,905.81 565.21 4,750.91 2,511.54 2,816.15 301.49 4,304.66 1,793.25 असाधारण मदो से पूर्व) कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाग / (हानि) (वशिष्ट एवं / 2,905.81 565.21 4,750.91 2,511.54 2,816.15 301.49 4,304.66 1,793.25 अथवा असाधारण मदो के बाद) कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाम / (हानि) (विशिष्ट एवं , 2,237.77 321.14 3,616.23 1,624.54 2,148.11 58.56 3,169.98 907.39 अथवा असाधारण मदो के बाद) अवधि हेत् कुल व्यापक आय [ अवधि हेत् (कर से बाद) लाभ / (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के 2,239.26 321.14 3,617.34 1,624.54 2,164.08 58.56 3,137.95 907,39 इक्विटी शेयर पूजी 368.95 368.95 368.95 368.95 368.95 368.95 368.95 368.95 (सम मूल्य ₹ 10 / - प्रति) आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई 9,608.37 6,213.41 8,428.11 5,512.55 पुनर्मुल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित) आय प्रति शेयर (₹ 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) 60.65 8.70 98.01 44.03 58.22 1.59 85.92 24.59 1.) बेसिक 60.65 8.70 98.01 44.03 58.22 1.59 85.92 24.59

1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उदघाटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई तिमाही / वार्षिक वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण विवरण विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही / वार्षिक वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.bseindia.com कंपनी की वेबसाईट www.grmrice.com पर उपलब्ध है।

जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड के लिए

(राशि लाखों में)

हस्ता/-अतुल गर्ग प्रबंध निदेशक DIN-: 02380612

समेकित

# एलकोमिस्ट रियल्टी लिमिटेड

रजि. कार्यालय. बिल्डिंग नं 23 , नेहरू प्लेस , नई दिल्ली – 110019

CIN No. L21100DL1983PLC334800. फोन नं. : (91-11)-40600800. ईमेल : investors.realty@alchemist.co.in

31-03-2020 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष हेतु समेकित /स्टैडअलोन ऑडिटिड वित्तीय परिणामों के ब्यौरे का सार

	-20 II	स्टेडअलोन					समेकित (र In Lac				
<b>西</b> .	Idatol	समाप्त तिमाही			समाप	समाप्त वर्ष		समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष	
н.		31-03-2020	31-12-2019	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2019	31-03-2020	31-12-2019	31-03-2020	31-3-2019	
1.	परिचालनों (शृड) से कुल आय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.	अन्य आय	41.14	13.22	12.42	388.00	236.59	41.14	13.22	388.00	236.59	
3.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर से पहले, विशेष एवं असाधारण वस्तुएं)	(208.41)	(16.64)	(91.91)	(16.33)	(1604.81)	(227.08)	(47.65)	(127.41)	(1728.59)	
4.	कर से पहले अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (विशेष एवं/अथवा असाधारण वस्तुओं के बाद	(208.41)	(16.64)	(91.91)	(16.33)	(1604.81)	(227.08)	(47.65)	(127.41)	(1728.59)	
5.	कर के बाद अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) (विशेष एवं असाधारण वस्तुओं के बाद	(210.73)	(16.79)	(91.91)	(19.09)	(1608.38)	(229.40)	(47.80)	(130.16)	(1732.16)	
6.	अवधि हेतु कुल वृहद आय (अवधि कर के बाद)हेतु लाभ (हानि) सहित एवं अन्य वृहद आय(कर के बाद)	(202.81)	(16.79)	(94.68)	(11.17)	(1605.91)	(221.48)	(47.80)	(122.24)	(1729.70)	
7.	इक्विट शेयर कैपिटल	1482.02	1482.02	1482.02	1482.02	1482.02	1482.02	1482.02	1482.02	1482.02	
8.	आईएनडी एएस अनुसार मृत्यांकन रिजर्व के अलावा रिजर्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9.	प्रत्येक 2/- रूपये के अंकित मूल्य का अर्जित पति इक्विटी शेयर										
	(1) मूल (2) मिश्रित	(0.28) (0.28)	(0.02) (0.02)	(0.12) (0.12)	(0.03) (0.03)	(2.17) (2.17)	(0.31) (0.31)	(0.06) (0.06)	(0.18) (0.18)	(2.34) (2.34)	

(1 ) उपरोक्त परिणामों की ऑडिट कमेटी द्वारा समीक्षा कर ली गयी है एवं 28 जुलाई 2020 को हुई निदेशक मंत्रल के बोर्ड की बैठक द्वारा अनुमोदित की गयी है।

(2) उपरोक्त 31-3-2020 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के विस्तृत प्रारूप का सार है। विसीय परिणान सेवी (सूधीकरण संक्ष्मी बाहयताओं एवं प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं विनियमन 2015) के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के पास दायर की गयी है। तिमाती एवं वार्षिक वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bse.india.com एवं कम्पनी की वेबसाइट www.alchemistrealty.com पर भी उपलब्ध है । (3) कंपनी ने 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी कार्पोस्ट मामले मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखक मानक (आईएनडी एएस की अनुपालना

में एवं अन्य लेखा नियम सामान्यत भारत में स्वीकार कर लिया गया है।

(4) 31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष हेतु आंकड़े 31 मार्च 2020 को समाप्त 12 मार्ठ हेतु संतुत्तित आंकड़े हैं एवं 31 दिसंबर 2019 को समाप्त माँ माह का विसीय प्रमाण प्रकाशित किया गया है।

अनुप नरगस सर्व कालिक निवेशक DIN No: 03609482

विनाक: 28-07-2020 स्थान : नई दिल्ली

www.readwhere.com

तिथि: 29.07.2020

स्थानः गुरुग्राम